



दश लक्षण विधान

(कवि श्री टेकचंदजी कृत)



प्राप्तिस्थान



दिगम्बर जैन पुस्तकालय

खपाटिया चकला, गांधीचौक,
सूरत-३



: (0261) 2590621

मूल्य:- १५-००

श्री दशलक्षण व्रत मंडल विधान का माडना



आत्म कल्याण के लिए दश प्रकार की प्रवृत्तियों को आचरित करने का उपदेश केवली भगवंतो ने दिया है। मानव से महामानव और महामानव से अर्हत परमेष्ठी पद तक पहुँचने के लिए यह दश लक्षण धर्म ही लोकोत्तर हैं। प्रत्येक धर्म की आराधना के साथ उनके प्रमुख भेदों की आराधना के अर्थ इस विधानमें आराधे गए हैं। यह व्रत वर्ष में तीन बार भाद्रपद शुक्ला ५ से १४ माघ शुक्ला ५ से १४ तथा चैत्र शुक्ला ५ से १४ तक आराधित करना चाहिए।

इस विधान का मंत्र इस प्रकार है।

ॐ ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग अंकिकचन ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः।

श्री दशलक्षण व्रत मंडल विधान का माडना (कपडे पर) "दिगम्बर जैन पुस्तकालय" खपाटिया चकला, गांधीचौक सूरत से ५००/- रूपये में पक्के रंग में मिलेगा।



कवि श्री टेकचन्दजी कृत

श्री दशलक्षण मण्डल विधान

जोगी-रासा

नेमीनाथो, देतो साथो,^१ भव भव और न चाहूँ।
भक्ति तिहारी, निशदिन मन वच, काय लाय करि गाऊँ ॥
धर्म कह्यो तुम, वानी दश विधि, सो मोहि होउ सहाई।
करुणासागर, सारस्व गर्भित, शीश नमों थुति गाई ॥

गीता छन्द

धर्मके दश कहे लक्षण, तिन थकी जिय सुख लहै।
भवरोगको यह महा औषधि, मरण जामन दुख दहै ॥
यह वरत नीका मीत जीका^२, करो आदरतैं सही।
मैं जजों दश विधि धर्मके अंग, तासु फल ह्वै शिवमही ॥

पद्धड़ी छन्द

यह धर्म भवोदधि नाव जान, या सेयें भव दुख होइ हान।
यह धर्म कल्पतरु सुख पूर, मैं पूजों भव दुख करन दूर ॥

गीता छन्द

यह वरत मन कपि गले माहीं, सांकली सम जानिये।
गज-अक्ष^३जीतन सिंह जैसो, मोहतम रवि मानिये ॥

^१तुम्हारा साथ। ^२जीवका मित्र। ^३इन्द्रियरूपी हाथी को।

२]

श्री दशलक्षण मण्डल विधान।

सुरथान^१ माहीं वरत नाही, मनुज हूँ शुभ कुल लहें।
तातै सुअवसर है भलो, अब करौ पूजा धुनि कहै ॥

बेसरी छन्द

जाने दशलक्षण व्रत कीना, से सत्पुरुषनिमें परवीना।
भवसागर फिरनो मिट जावै, जो नर दशलक्षण वृष^२ भावै ॥

भुजंगप्रयात छन्द

यही धर्म सारं करै पाप क्षारं, यही धर्म सारं, करै सुख अपारं।
यही धर्म धीरा, हरै लोक पीरा, यही धर्म मीरा^३ करै लोकतीरा।

त्रिभंगी छन्द

यह धर्म हमारा, सब जग प्यारा, जगत उधारा हितदानी।
यह दशविधि गाया, जन मन भाया, उच्च बताया जिनवानी ॥
यह शिव करतारा, अघतें न्यारा, भवि उद्दारा मुनि धारा।
ताकौ मैं ध्याऊं शीश नवाऊं, अर्घ चढ़ाऊं सुखकारा ॥

चौपाई छन्द

या व्रतकी महिमा कहि वीर, दशविधि धर्म हरै भवपीर।
इसी धर्म बिन जग भरमाय, जजहु धरम अति दुरलभ पाय ॥
दोहा-दश प्रकारको धर्म यह, दशविधि सुरतरु^४ जान।

वांछित पद सेवक लहें, अधिक कहा सुखदान ॥

सोरठा-धर्म हमारा नाथ, धर्म जगतका सेहरा।

भव भवमें हो साथ, और न वांछा मन विषैं ॥

मण्डल मध्ये पुष्पांजलि क्षिपेत्।

१-स्वर्ग। २-धर्म। ३- प्रधान। ४-कल्पवृक्ष

समुच्चय पूजा

त्रिभंगी छन्द

यह धर्म क्षमावा मान गुमावा, सरल सुभावा सतिवानी।
शुचि भाव करावा संजम लावा, तप करवावा अधिकाणी ॥
शुचि त्याग बतावै नगन पूजावै, शील बढ़ावै शिवदाई।
यह धर्म दशारा^१ थाप करारा, पूजन धारा शिरनाई ॥

ॐ ह्रीं श्री दशलक्षण धर्म अत्र अवतर अवतर संवीषट्। अत्र
तिष्ठर ठः ठः स्थापनं। अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणं।

मणुयणाणंदकी चाल

क्षीर सागर तना नीर शुभ लाइये।

कनक झारी विषैं धार गुण गाइये ॥

मरण उत्पति नहीं होय ता फल सही।

जानि इमि धर्म दशधा जजौं शिवमही ॥१ ॥

ॐ ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मैभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वं।

नीरं संग अगर चन्दन घिस लायजी।

सुभग पातर विषै धारि थुति गायजी ॥

जगत ताप तासु फल तुरत नाशै सही।

जानि इमि धर्म दशधा जजौं शिवमही ॥२ ॥

ॐ ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मैभ्यो संसारतापविनाशनाय चंदनं निर्वं।

लेय अक्षत भले मुक्तिफलसे कहे।

उजले अखंड सुभग स्वर्ण पातर लहे ॥

४]

श्री दशलक्षण मण्डल विधान।

अखयपद पावनै आप मनमें सही।

जानि इमि धर्म दशधा जजौं शिवमही ॥३॥

ॐ ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मैभ्योऽक्षयपदप्राप्तयेऽक्षतान निर्व. स्वाहा।

फूल कञ्चनवरन कल्पतरुके भले।

गन्ध जुत रंग शुभ लेइ निज कर चले ॥

माल तीन गूथि कामबाण नाशक सही।

जानि इमि धर्म दशधा जजौं शिवमही ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मैभ्यः कामबाणविध्वंसनाय पुष्यं निर्व.।

सुगम नैवेद्य मोदक घने लाइये।

विविध स्वादमय सु धरि भक्ति उर भाइये।

भूख दुख हर्ण स्वर्ण पात्र धरिके सही।

जानि इमि धर्म दशधा जजौं शिवमही ॥५॥

ॐ ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मैभ्यः क्षुधा रोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्व.।

दीप मणि रतनमय और धृतमय सही।

धारि कनक थालमें सु आरति जु करि लही ॥

धर्मज्योति मोह अन्धकार नाशिका सहा।

जानि इमि धर्म दशधा जजौं शिवमही ॥६॥

ॐ ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मैभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीपं निर्व.।

धूप दश अङ्ग मय लायकर सारजी।

अगनि संग खेवहूं सुभक्ति उर धारजी ॥

कर्म छयकार भव वास नाशन सही।

जानि इमि धर्म दशधा जजौं शिवमही ॥७॥

ॐ ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मैभ्यः अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्व. स्वाहा।

लोंग खारिक सु नारिकेल सुक्खकारजी।

और बादाम पुंगी फलादि सारजी ॥

लेइ निज हाथमें सु भक्ति धरिंक सही।

जानि इमि धर्म दशधा जजौं शिवमही ॥८ ॥

ॐ ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मभ्यो मोक्षफल प्राप्तये फलं निर्व. स्वाहा।

नीर गन्ध अक्षत सुफूल चरु सोईजी।

दीप अरु धूप फल अरघ संजौईजी ॥

पुरट थाली विषै भक्ति करिके सही।

जानि इमि धर्म दशधा जजौं शिवमही ॥९ ॥

ॐ ह्रीं श्री दशलक्षण धर्मभ्योऽनर्घ्य पदप्राप्तयेऽर्घ्यं निर्व. स्वाहा।

धर्म भवकूप तैं काढ़नेको रसी।

भव उदधि पार करतार नवका इसी।

धर्म सुख दैन जिमि तात माता सही।

जानि इमि धर्म दशधा जजौं शिवमही ॥१० ॥

ॐ ह्रीं श्री दशलक्षणधर्मभ्यो महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

जयमाला-दोहा

दश वृष रतन मिलायके, माल करै भवि जोय।

धरै आपने उर विषैं, ता सम और न कोय ॥१॥

बेसरी छन्द

दशलक्षण वृष शिवमग दीवा^१, धर्म थकी सुख पावै जीवा।

मुकति दीप पहुंचावन नावा, ये दश धर्म जजौं जुत भावा ॥

६]

श्री दशलक्षण मण्डल विधान।

दशविधि धरम धरै जो कोई, करम नाशि फिर दुख नहिं होई ।
धरम जु साधन और न कोई, यों दश धर्म जजौं मद खोई ॥
धरम जीवका पालनहारा, धरम मानका खण्डनवारा ।
धरम थकी जावै कुटिलाई, इमि दश धर्म जजौं चितलाई ॥
सांच वचन सम धरम न आनौ, धर्म भाव निर्मल पहिचानौ ।
धर्म जीवरख^१ इंद्रिय जीतं इमि लखि धर्म जजौं करि प्रीतं ॥
तप ही सर्व धर्मका मूला, त्याग धरमतै क्षय अघ थूला ।
धर्म नगन^२ सम और न कोई, इमि दश धर्म जजौं मद खोई ॥
नारी त्याग धरम शिवदाई, ये दश धरम जगतमें भाई ।
जो दश लक्षण मनमें आनै, सो भव तप हर शिवपद ठानै ॥
दश लक्षण व्रत इह विधि कीजै, उत्कृष्टै दश वास करीजै ।
नातर बेले पारन भाई, तथा इकंतर वास कराई ॥
शक्ति हीन ह्वै तो सुन मीता, दश एकान्त करौ धरि प्रीता ।
व्रत दश बरस करै मन लाई, करु उद्यापन मन वच काई ॥
नहीं उद्यापन शक्ति तुम्हारी, तों दूनौ व्रत करु सुखकारी ।
पीछे यथाशक्ति खरचावै, पूजन धर्म उद्योत करावै ॥
दोहा- इत्यादिक विधि सहित जो, धर्म करै दश सार ।
पावै सुख मन भावनो, अनुक्रम ले भव पार ॥
ॐ ह्रीं श्री दशलक्षणधर्मैभ्यः पूर्णार्घ्यं निर्व. स्वाहा ।

इति समुच्चय पूजा ।

१-जीवकी रक्षा। २- आकिंचन्य धर्म।

उत्तम क्षमा धर्म पूजा

अडिल्ल छन्द

जीव तिरस थावर जेते जगमें सही।

देव नरक नर पशू चारि गतिकी मही॥

तिन सब ऊपर दयाभाव उर मांहि जी।

सो है उत्तम क्षमा थापि जजूं याहिं जी॥१॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा धर्मांग! अत्र अवतर अवतर संवौषट्।

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा धर्मांग! अत्र तिष्ठ२ ठः ठः स्थापनं।

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा धर्मांग! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्।

अथाष्टकम् (पद्धरी छंद)

जल गंग नदीको विमल सोइ, धरि रतन पियाले शुद्ध होई।

यह धरम क्षमा उत्तम सुजान, मैं पूजों मन वच भक्ति आन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा धर्माङ्गाय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलं नि.।

बावन चंदन घसि नीर लाय, धरि कनक रकेबी जिन चढ़ाय।

यह धरम छिमा उत्तम सुजान, मैं पूजों मन वच भक्ति आन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा धर्माङ्गाय संसारताप विनाशनाय चंदनं नि.।

अक्षत मुक्ताफल सम जु लाय, अति उज्वल नख शिख शुद्धभाय।

यह धरम छिमा उत्तम सुजान, मैं पूजों मन वच भक्ति आन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा धर्माङ्गाय अक्षयपद प्राप्तये अक्षतान् निर्व.।

शुभ फूल कल्पतरुके अनूप, करि माला सुभग सुगन्ध रूप।

यह धरम छिमा उत्तम सुजान, मैं पूजों मन वच भक्ति आन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा धर्माङ्गाय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पं नि.।

८]

श्री दशलक्षण मण्डल विधान ।

नाना रस पूरित चरु सम्हार, शुभ मोदक आदि अनेक धार ।
यह धरम छिमा उत्तम सुजान, मैं पूजों मन वच भक्ति आन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा धर्माङ्गाय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि. ।

मणि दीपकसार बनाय लाय, धरि कनक थाल भरि भक्ति आय ।
यह धरम छिमा उत्तम सुजान, मैं पूजों मन वच भक्ति आन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा धर्माङ्गाय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं नि. ।

ले धूप अगरुजा गन्धकार, दुर्भाव हुताशन मांहि जार ।
यह धरम छिमा उत्तम सुजान, मैं पूजों मन वच भक्ति आन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा धर्माङ्गाय अष्टकर्मदहनाय धूपं नि. स्वाहा ।

फल नारिकेल बादाम सोड़, पुंगीफल खारक भक्ति जोड़ ।
यह धरम छिमा उत्तम सुजान, मैं पूजों मन वच भक्ति आन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा धर्माङ्गाय मोक्षफल प्राप्तये फलं नि. स्वाहा ।

जल चन्दन अक्षत फूल लाय, चरु दीप धूप फल अरघ भाय ।
यह धरम छिमा उत्तम सुजान, मैं पूजों मन वच भक्ति आन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा धर्माङ्गाय अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घं नि. स्वाहा ।

प्रत्येकाध्याणि । अडिल्ल

पाप प्रकृति कर जीव, अशुभ बन्धन करयो ।

थावर नामा कर्म उदय दुखको भरयो ॥

पृथ्वी माहिं सु जाय सहै बहु अघ फला ।

तिनका रक्षण भाव क्षमा उत्तम भला ॥१॥

ॐ ह्रीं श्री पृथ्वीकायिकपरिरक्षणरूपोत्तमक्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्यं नि. ।

जे जलकायिक जीव ज्ञान बिन दुख लहैं।

इक इन्द्रियके द्वार अतुल विपदा सहैं ॥

तिनको दुखमय जानि मुनि करुणा करै।

तसु प्रसादतैं झटिति मोक्ष वनिता वरैं ॥२॥

ॐ ह्रीं जलकायिकपरिरक्षणरूपोत्तम क्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

अग्नि काय धर जीव एक इन्द्रिय सही।

नाना दुख तन सहै जलैं सब जग मही ॥

इन पर करुणाभाव धरैं जे भवि सही।

सो ही उत्तम क्षमा मोक्षदाता कही ॥३॥

ॐ ह्रीं अग्निकायिकपरिरक्षणरूपोत्तमक्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

पवन कायके जीव महा सङ्कट सहैं।

हाथ पांव मुख वचन थकी बाधा लहैं ॥

इनपर करुणाभाव जती धारैं सही।

सो ही उत्तम क्षमा कही शिवकी मही ॥४॥

ॐ ह्रीं वायुकायिकपरिरक्षणरूपोत्तमक्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्य नि. स्वाहा।

हरित कायमें प्राणी अति वेदन लहै।

छेदन भेदन कष्ट महा अघ फल सहै ॥

इन पर समता भाव सुखी इनको चहै।

सो ही उत्तम क्षमा धारी मुनि शिव लहै ॥५॥

ॐ ह्रीं वनस्पतिकायिकपरिरक्षणरूपोत्तमक्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

थावरकें पन भेद पाप फलतैं बने।

सूक्ष्म बादर भेद दोय यों जिन भने ॥

इनको दुखमय जानि दया मन लाय हैं।

सो ही उत्तम क्षमा जजौं शिर नाय है ॥६॥

ॐ ह्रीं सूक्ष्मस्थूल पंचस्थावरपरिरक्षणरूपोत्तमक्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

लट अरु जोंक गिंडोला इल्ली जानिये।

कौड़ी शंख दुइन्द्रिय अति दुख थानिये।

इन पर करुणाभाव जती धारें सही।

सो ही उत्तम क्षमा जजौं शिवकी मही ॥७॥

ॐ ह्रीं द्वीन्द्रियजीवपरिरक्षणरूपोत्तमक्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व.।

चींटी कूथा खटमल वीछु दुखमही।

ते इन्द्रिय परजाय पाय धुण आदि ही ॥

इनको दुखमय जानि मुनि करुणा धरें।

सो ही उत्तम क्षमा जजौं सब अघ जरै ॥८॥

ॐ ह्रीं त्रीन्द्रियजीवपरिरक्षणरूपोत्तमक्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व.।

माखी मच्छर टीड़ी भंवरादिक सही।

बर ततइया मकड़ी चतुरिन्द्रिय कही ॥

इनको दुखिया देखि मुनि करुणा धरें।

सो ही उत्तम क्षमा जजौं वसुविधि जरें ॥९॥

ॐ ह्रीं चतुरिन्द्रियजीवपरिरक्षणरूपोत्तमक्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व.।

इन्द्रिय पांचों होय, नहीं मन जो लहै।

ते जिय जानि असैनी अघ फल अति दहैं ॥

इनको दुःख भरिपूर जानि करुणा धरें।

सो ही उत्तम क्षमा जजौं शिवथल धरें ॥१०॥

ॐ ह्रीं संज्ञी पंचेन्द्रियजीवपरिरक्षणरूपोत्तमक्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

नरक जीव अति दुखी पाप फलतैं सही।

छेदन भेदन पीर सहैं जात न कही॥

इन पर करुणाभाव जती अति लाय हैं।

सो ही उत्तम क्षमा जजौं सुखदाय है॥११॥

ॐ ह्रीं नारकीजीवपरिरक्षण-रूपोत्तम-क्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व।

गीता छन्द

मनुष क्रोध रु मान माया, लोभवश दुखिया घनें।

बहु चाह पीडित रागद्वेषी, अघ घनो उपजे तिने॥

तिन देख यतिवर दया लावे, महा दीन दयालजी।

सो धर्म उत्तम क्षमा निर्मल, जजौं भाग्य विशालजी॥

ॐ ह्रीं मनुष्यजीव-परिरक्षण-रूपोत्तमक्षमा-धर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व।

परकार चारों देव गतिमें, जीव सुख राचै सही।

लछि देखि परकी झुरै नितही, मानते पीड़ा कही॥

तिन देखि मुनि उर दया भावै, महा कोमल भाव जो।

सो धर्म उत्तम क्षमा पूजौं अर्घ तैं कर चावजी॥

ॐ ह्रीं चतुर्विधदेवजीव परिरक्षण-रूपोत्तम-क्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्य नि।

बेसरी छन्द

थावर तिरस जीव जब जोई चहुँ गति करमनिके वशि होई।

तिनको देखि दया उर लाई, सो उत्तम क्षमा धर्म जजाई॥

ॐ ह्रीं त्रसस्थावर-समस्तजीव-परिरक्षण-रूपोत्तम-क्षमाधर्माङ्गाय अर्घ्य।

जयमाला-दोहा

धर्म क्षमा उत्तम बंडो, सब जीवन सुखदाय।

जजै जीव सो पुनि लहै, करै जु शिवपुर जाय॥

बेसरी छन्द .

सब जीवन में राग न दोषा, सो है क्षमा धर्म निरदोषा।
 दुर्जन कृत उपसर्ग लहावै, ताहू पै समभाव रहावै ॥
 मुनिको वचन कहै दुखकारी, मरम छेद छेदै अघ धारी।
 मान खंड किरिया करवावै, तब मुनि क्षमा धर्म मन लावै ॥
 जे कोय दुष्ट मुनिनको मारै, तीक्ष्ण शस्त्रतैं करि परिहारै।
 बांधे तनको खेद न पावै, तिनपर क्षमा धर्म मन लावै ॥
 अति दुखिया जिय को ऋषि जानै, तब मुनिअनुकंपामनआन।
 आपा परको हित उपजावै, तब मुनि क्षमा धर्म मन लावै ॥
 उत्तम क्षमा धरम सुखदाई, क्षमा धरम सब जियका भाई।
 जब मुनिहुपै कष्ट जु आवै, तब मुनि क्षमा धर्म मन लावै ॥
 क्षमा धरमसी ढाल न होई, क्रोध समान प्रहार न कोई।
 क्षमा समान न बल अति पावै, तातें जतो क्षमा वृष भावै ॥
 क्षमा धरम शिव राह बताई, क्षमा तात माता अरु भाई।
 जाते सिद्ध सुखनको पावै, ऐसी क्षमा मुनि मन लावै ॥

सोरठा।

क्षमा आभूषण सार, उर में जो पहिरे सही।
 ते भवसागर पार, जजौं धर्म उत्तम क्षमा ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमक्षमा-धर्माङ्गाय पूर्णार्घ्यं।

॥ इति उत्तमक्षमाधर्म पूजा ॥



उत्तम मार्दव धर्माङ्ग पूजा

पद्धती छन्द

मार्दव वृष भाव विचार सोइ, जहां मान भाव दीखे न कोइ ।
ईहधारी मुनि शिवगामी जानि, मैं जजौं थापि मार्दव सुभानि

ॐ ह्रीं श्रीउत्तममार्दवधर्म धर्माङ्ग अत्र अवतरर संवौषट् । अत्र
तिष्ठर ठः ठः स्थापनं अत्र मम सन्निहितो भवर वषट् सन्निधिकरणं ।

अथाष्टकम् (मणुयणानन्द की चाल)

क्षीर सम नीर शुद्ध गाल कर लाइये ।

पात्र सुवरण विषै धारि गुण गाइये ॥

जगतफिरनौ मिटे तासु फलतैं सही ।

धर्म मार्दव जजौं शुद्ध शिवदा मही ॥२॥

ॐ ह्रीं उत्तममार्दव-धर्माङ्गाय जलं निर्व. स्वाहा ।

स्वच्छ नीर संग चंदनादिको मिलायजी ।

शुद्ध गंधयुक्त भक्ति भावतैं चढ़ायजी ॥

जगत आताप-हर जानि ता फल सही ।

धर्म मार्दव जजौं शुद्ध शिवदा मही ॥३॥

ॐ ह्रीं उत्तममार्दव-धर्माङ्गाय चंदनं निर्व. स्वाहा ।

अक्षतं समुज्ज्वलं खंड बिन जानिये ।

सुभग मोती जिसे थाल भरि आनिये ॥

धौव्य फलदाय मनलाय ध्याऊं सही ।

धर्म मार्दव जजौं शुद्ध शिवदा मही ॥४॥

ॐ ह्रीं उत्तममार्दव-धर्माङ्गाय अक्षतं निर्व. स्वाहा ।

फूल कल्पवृक्षके गंध रंग सारजी।

माल गूथि शुद्धभाव भक्ति कर धारजी ॥

मदन मद हरन सुफल जानि यातैं सही।

धर्म मार्दव जजौं शुद्ध शिवदा मही ॥५ ॥

ॐ ह्रीं उत्तममार्दव-धर्माङ्गाय पुष्पं निर्व. स्वाहा।

सुभग रस शुद्ध नैवेद्य मन लाइये।

मोदकादि शुद्ध भक्ति भावतैं चढ़ाइये ॥

धारि स्वर्णपात्र शुद्ध मन् वचन तन सही।

धर्म मार्दव जजौं शुद्ध शिवदा मही ॥६ ॥

ॐ ह्रीं उत्तममार्दव-धर्माङ्गाय नैवेद्यं निर्व. स्वाहा।

दीप रतननमयी नाश तमको करा।

कनक पातर विषै भक्ति भावतैं धरा ॥

नाश अज्ञान है तासु फलतैं सही।

धर्म मार्दव जजौं शुद्ध शिवदा मही ॥७ ॥

ॐ ह्रीं उत्तममार्दव-धर्माङ्गाय दीपं निर्व. स्वाहा।

धूप दशगंध शुभ लेय मन मानिये।

अगर चंदन सबै मेली शुभ ठानिये ॥

अग्नि संग खेइये कर्म जालन सही

धर्म मार्दव जजौं शुद्ध शिवदा मही ॥८ ॥

ॐ ह्रीं उत्तममार्दव-धर्माङ्गाय धूपं निर्व. स्वाहा।

श्रीफलादि लौंग पुङ्गी फलादि जानिये।

शुद्ध बादाम खारक भले आनिये ॥

सिद्ध थानक लहै तासु फलतैं सही।

धर्म मार्दव जजौं शुद्ध शिवदा मही ॥९ ॥

ॐ ह्रीं उत्तममार्दव-धर्माङ्गाय फलं निर्व.स्वाहा।

नीर चंदन अखित पुष्प चरु दीप जी।

धूप फल अर्घ कर भाव शुद्ध टीपजी ॥

लोक में फिरन, तन धरन मिटि है सही।

धर्म मार्दव जजौं शुद्ध शिवदा मही ॥१० ॥

ॐ ह्रीं उत्तममार्दव-धर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व. स्वाहा।

प्रत्येकाध्याणि (चाल मणुयणानन्दकी)

देव वीतराग सर्वज्ञ तारक सही।

दोष अष्टादशों तासु माहीं नहीं ॥

नमत तिन पद करै धर्म मार्दव कह्यो।

सो जजौं चारि गति मांहि भरमन दह्यो ॥१ ॥

ॐ ह्रीं वीतरागदेवपद नमन-मार्दवधर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व.।

वीतराग देव कही वानि सो धर्म है।

ता सुनै जीव निज हरै भाव भर्म है।

मन वच काय श्रुतपाद सिरनाय है।

सो जजौं धर्म मार्दव सु शिवदाय हैं ॥२ ॥

ॐ ह्रीं श्री जिनधर्मपद नमन-मार्दवधर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व.।

धर्मको सेय तप लेय कर्म जार जी।

भये सिद्ध देव तन रहित सुखकार जी ॥

लेय इन नाम मन वचन शिरनाय है।

सो जजौं धर्म मार्दव सु शिवदाय है ॥३॥

ॐ ह्रीं श्री सिद्धपदनमन मार्दवधर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व. स्वाहा।

धारि छत्तीस गुण सूरि सुखदाय जी।

धर्म तप भाव सों गुप्त धरि भाय जी।

मान तजि नमन इन पद विषैं लाइयो।

धर्म मार्दव सु तासु फल मोक्ष पाइयो ॥४॥

ॐ ह्रीं श्री आचार्यपदनमन मार्दव धर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व. स्वाहा।

धारि गुण पांच अरु बीस उवङ्गायजी।

और भी अनेक गुण पास तिन थायजी ॥

मान तजि इन चरण कायको नाइयो।

धर्म मार्दव सु तासु फल मोक्ष पाइयो ॥५॥

ॐ ह्रीं श्री उपाध्यायपद-नमन मार्दव-धर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व.।

क्षेत्र अतिशय तहां धर्म को धाय है।

नमन बहु जिय करै देव गुण गाय है ॥

मान तजि क्षेत्र शुभ जानि शिर नाइयो।

धर्म मार्दव सु तासु फल मोक्ष पाइयो ॥६॥

ॐ ह्रीं श्री अतिशयक्षेत्र-पद-नमन मार्दव-धर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व.।

देव जिन की सु प्रतिमा अकृत्रिम इसी।

रूप द्युति ध्यान मुद्रा कही जिन जिसी ॥

मान तजि शीश इन चरणको सु नाइयो।

धर्म मार्दव सु तासु फल मोक्ष पाइयो ॥७॥

ॐ ह्रीं श्री अकृत्रिम-जिन-चैत्यपदनमन मार्दव-धर्माङ्गाय अर्घ्य निर्व.।

सुरग थानक विषै देव जिनके सही।

रतनमय जैन बिंब बिगर किये है मही।

मान तजि शीश इन चरणको सु नाइयो।

धर्म मार्दव सु तासु फल मोक्ष पाइयो ॥८ ॥

ॐ ह्रीं श्री उर्ध्वलोकसंबंधी जिनचैत्यपदनमन मार्दवधर्माङ्गाय अर्घ्यं ।

ज्योतिषी व्यंतरा थामे मध्यलोकजी।

बिन किये चैत्य जिन कहै अघ रोकजी।

मान तजि शीश इन चरणको सु नाइयो।

धर्म मार्दव सु तासु फल मोक्ष पाइयो ॥९ ॥

ॐ ह्रीं श्री मध्यलोकसंबंधी जिनचैत्यपदनमन मार्दवधर्माङ्गाय अर्घ्यं नि. ।

भवन देवनि विषै बहुत जिनरायजी।

बिम्ब अकृत्रिम कहे सेय तसु पायजी ॥

मान तजि शीश इन चरणको सु नाइयो।

धर्म मार्दव सु तासु फल मोक्ष पाइयो ॥१० ॥

ॐ ह्रीं श्री उर्ध्वलोकसंबंधी जिनचैत्यपदनमन मार्दवधर्माङ्गाय अर्घ्यं नि. ।

आदि इन पूज्य थानक बहुत हैं सही।

सिद्ध क्षेत्र मोक्ष फलदाय तीरथ मही ॥

मान तजि शीश इन चरणको सु नाइयो।

धर्म मार्दव सु तासु फल मोक्ष पाइयो ॥११ ॥

ॐ ह्रीं श्री सिद्धक्षेत्र-पदनमन मार्दवधर्माङ्गाय अर्घ्यं निर्व. ।

जयमाला। (बेसरी छन्द)

मार्दव धर्म मानको खोवै, ताफल जगत पूज्य फल होवैं।

मार्दव सकल दोष निरवारै, ताफल आप तिरै अनि तारै ॥

मार्दव धरम इन्द्र सुर पूजै, मार्दव धरम भजै अघ धूजै ।
 मार्दव मान हरै सुखकारै, ताफल आप तिरै अनि तारै ॥
 मार्दव धरम महा नर ध्यावै, मार्दव धरम हानि नहिं पावै ।
 यह मार्दव वृष शिव थल धारै, ताफल आप तिरै अनितारै ॥
 मार्दव सबको राखै माना, मार्दव सब धरमनि में दाना ।
 मार्दव धरम जीव ले धारै, ताफल आप तिरै अनि तारै ॥
 मार्दव धरम सुरग सुख केरा, उपद्रव नाशि हरै भव फेरा ।
 मार्दव उत्तम पुरुष सु धारै, ताफल आप तिरै अनि तारै ॥
 मार्दव मोक्षमार्गको दाता, मार्दव धर्म सकल जग त्राता ।
 मार्दव वृष गुणवन्ता धारै ताफल आप तिरै अनि तारै ॥
 मार्दव धरम कल्पतरूभाई, मार्दव मनवांछित फलदाई ।
 मार्दव धरम मुकुट जो धारै, ताफल आप तिरै अनि तारै ॥
 मार्दव धरम कनकमें मीना, मार्दव धारि सकै न कमीना ।
 मान मार मार्दव वृष धारै, ताफल आप तिरै अनि तारै ॥
 मार्दव वृष सब धर्म प्रधाना, मार्दव मोह मल्लको हाना ।
 मार्दव माल पुरुष उर धारै, ताफल आप तिरै अनि तारै ॥

दाहा

मान मार मार्दव करै, हरै पाप मल सोय ।
 जगत छुड़ावै शिव करै, ते भारक्षक होय ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तम मार्दव धर्माङ्गाय अर्घ्य नि. ।



उत्तम आर्जव धर्म पूजा

बेसरी छन्द

जग परपंच रहित जो भावा, सरल चित्त सबतै निरदावा ।
तिनको आर्जवभावसु कहियें, सो ह्यां थापि पूज फल लहिये ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमआर्जव धर्माङ्गाय अत्र अवतरर संवौषट् ।

अत्र तिष्ठर ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भवर वषट् सन्निधिकरणं ।

अथाष्टकं (बेसरी छन्द)

क्षीर समुद्रका उज्ज्वल नीरा, कनक पियाले घर अति धीरा ।
जरा रोग नाशनको भाई, आर्जव भाव नमों शिर नाई ॥

ॐ ह्रीं श्री आर्जवधर्माङ्गाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि ।

चंदन बावन जल घसि लाया, कनकपात्रमें धरि उमगाया ।
शोकानल तप नाशन भाई, आर्जव धरम जजौ शिर नाई ॥

ॐ ह्रीं श्री आर्जवधर्माङ्गाय संसारताप विनाशनाय चदनं नि ।

अक्षत मुक्ताफलसे जानो, उज्ज्वल खंड विवर्जित आनो ।
क्षय नहि होय इसी पद दाई, आर्जव भाव नमो शिर नाई ॥

ॐ ह्रीं श्री आर्जवधर्माङ्गाय अक्षयपदप्राप्तयेऽक्षतान नि ।

फूल सुगंध कल्पद्रुम लाया, तथा सुवर्ण रजतभय भाया ।
तिनकी माला गुंथिकर लाय, आर्जव भाव नमो शिरनाई ॥

ॐ ह्रीं श्री आर्जवधर्माङ्गाय कामबाणविध्वंशनाय पुष्पं नि ।

नाना रस नैवेद्य करावै, मोदक आदि भक्तितै लावै ।
भूख व्याधि नाशनको भाई, आर्जव भाव नमो शिरनाई ॥

ॐ ह्रीं श्री आर्जवधर्माङ्गाय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि ।

दीपक रतन थालि धरि लीजै, मनवचकाय शुद्ध करी लीजै ।
घाति अज्ञान ज्ञान दरशाई, आर्जव धरम जजै शिरनाई ॥

ॐ ह्रीं श्री आर्जवधर्माङ्गाय मोहांधकारविनाशनाय दीपं नि. ।

धूप अगरजा चंदन भीनी, गंध सहित निज करमें लीनी ।
कर्म दहनकी अगनि जराई, आर्जव भाव नमौ शिर नाई ॥

ॐ ह्रीं श्री आर्जवधर्माङ्गाय अष्टकर्मदहनाय धूपं नि. ।

ले नारियल बादाम सुपारी, खारिक लोंग आदि हितकारी
सिद्ध लोक वांछा मन मांही, आर्जव धरम जजौ शिरनाई ॥

ॐ ह्रीं श्री आर्जवधर्माङ्गाय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि. ।

जल चंदन अक्षत कामारी, चरु दीपक फल धूप विथारी ।
अर्घ लेय मनवचतन भाई, आर्जव धरम जजौ शिर नाई ॥

ॐ ह्रीं श्री आर्जवधर्माङ्गाय अनर्घ्यपद प्राप्तयेऽर्घ्यं नि. ।

प्रत्येकार्घ्याणि (बेसरी छन्द)

गुण छयालीस जहां प्रभु तेरा, अष्टादश तहां दोष न हेरा ।
तिनपदसरल भावशिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिव पावै ॥

ॐ ह्रीं श्री छियालीसगुणसहितजिन चरणनमनार्जवधर्माङ्गायार्घ्यं नि. ।

मुक्तजीव अरहंत थूति कीजै, मनवच कूटिल भाव तजि दीजै ।
तिनपद सरलभाव शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिव धावै ॥

ॐ ह्रीं श्री मुक्तजीव अरहन्तपदनमनार्जवधर्माङ्गायार्घ्यं नि. ।

कर्म काटि शिवलोक सिधारे, सिद्ध सुदेव हरौ अघ सारे ।
तिनपद सरल भाव शिरनावै, सो आर्जव वृष जजि शिवधावै ॥

ॐ ह्रीं श्री सिद्धपदनमनार्जवधर्माङ्गायार्घ्यं नि. ।

सिद्ध शिला पैतालीस लाखा, योजन विस्तृत जिन वच भाषा।
तत्रस्थित आत्म शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिव धावै ॥

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धशिलास्थित मुक्तात्मपद नमनार्जवधर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

गुण छत्तीस सुधारक सुरा, आचारज सब गुण भरपूरा।
तिनपद सरल भाव शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिवधावै ॥

ॐ ह्रीं श्री आचार्यपद-नमनार्जव-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

आचारज सब गुण भरपूरा, आचारादि गुणन युत सूरा।
तिनपद सरल भाव शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिवधावै ॥

ॐ ह्रीं श्री आचार्य-पदपरोक्ष-नमनार्जव-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

गुण पचीस उवझाय सु माहीं, ग्यारह अंग चौदह पुरवाहीं।
तिनपद सरल भाव शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिव धावै ॥

ॐ ह्रीं श्री उपाध्यायपद-नमनार्जव-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

बहु गुण धर उवझाय सु जानों, दूरहितै तिनको चित आनो।
तिनपद सरल भाव शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिवधावै ॥

ॐ ह्रीं श्री उपाध्यायपद-परोक्ष-नमनार्जवधर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

बीस आठ गुण साधन साधा, सो नहि लहै जगत की बाधा।
तिनपद सरल भाव शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिव धावै ॥

ॐ ह्रीं श्री साधुपदनमनार्जव-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

दूरहितै मुनि गुण जु चितारै, मन वच काया निज वश धारै।
तिनपद सरल भाव शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिव धावै ॥

ॐ ह्रीं श्री साधुपद-परोक्षनमनार्जव-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

वरण विहीन सु जिनवर वानी, तिनको सुनि सुख पावै प्रानी।
तिनपद सरल भाव शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिव धावै ॥

ॐ ह्रीं श्री जिनमुनि-नमनार्जव-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

अतिशय क्षेत्र सु तीरथ ठामा, यात्री गण कै पूरँ कामा।
तिसथल सरल भाव शिर नावै, सो आर्जव वृषजजि शिवधावै ॥

ॐ ह्रीं श्री अतिशयक्षेत्रपद-नमनार्जव-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

शिखरसम्मेद आदि सिद्ध थाना, तहँमुनि लियशिव कर्म नशाना।
तिनपद सरल भाव शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिव धावै ॥

ॐ ह्रीं श्री सिद्ध क्षेत्रपद-नमनार्जव-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

विगर किये जिनबिंब अनूपा, लक्षण चिह्न जानि जिन रूपा।
तिनपद सरल भाव शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिव धावै ॥

ॐ ह्रीं श्री अकृत्रिम-जिनचैत्यपद-नमनार्जव-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

कृत्रिम जे जिन बिंब बिराजे, विनय सहित पुन दायक छाजै।
तिनपद सरल भाव शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिव धावै ॥

ॐ ह्रीं श्री कृत्रिम-जिनचैत्यपद-नमनार्जव-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

इत्यादिक बहु क्षेत्र सुथाना, पूजनीक तीरथ अघ हाना।
तिनपद सरल भाव शिर नावै, सो आर्जव वृष जजि शिव धावै ॥

ॐ ह्रीं श्री सकलपूज्यस्थानकपद-नमनार्जव-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

जयमाला - दोहा

सरल भाव सारै सरस, सुरनर पूज्य महान।
तातै तजनी कुटिलता, आरजव भाव लहान ॥

बेसरी छन्द

सरल भाव समता उर आनै, सरल भाव सब औगुन भानै
आरजव भाव धरै जो जीवा, तिनने जिनवानी रस पीवा

आरजव भाव धरें जे प्राणी, तिनके होनहार शिवरानी।
 दोष भाग तिनतैं नहिं छीवा, आरजव भाव धरें जे जीवा ॥
 आरजव भाव अमरपद द्यावै, आरजव में औगुन नहिं पावै।
 कुटिलभाव विष जिन नहिं पीवा, आरजवभाव धरें जे जीवा
 आरतिको आरजव ही खोवै, आरजव भाव पापमल धोवै।
 रोग शोक ताको नहिं छीवा, आरजव भाव धरै जे जीवा।
 आरजव शुद्धभाव जिन पाया, तिनने लहि पुन, पाप गमाया।
 अनुभव आनन्द तानै छीवा, आरजव भाव धरै जे जीवा।
 आरजवभाव दोष सब खोवै, आरजव कर्म कालिमा धोवै।
 शुद्ध सुभाव सु तानै लीवा, आरजव भाव धरें जे जीवा ॥
 आरजवभाव सकलको प्यारा, आरजवभाव भ्रमणतैं न्यारा।
 ताकों और रुचे न मतीवा, आरजवभाव धरें जे जीवा ॥
 आरजव सुर शिवके सुख ठाने; आरजवभाव पूर्व अघभाने।
 अद्भुत आपापर भिनकिवा, आरजवभाव धरै जे जीवा ॥

दोहा

अन्तरंग निरदोष के, प्रगटै आरजव भाव।
 जाके फल मरनौ मिटै, छुटै कर्म को दाव ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तम-आर्जव-धर्माङ्गाय-पूर्णार्घ्य नि.।

इति उत्तम आर्जव धर्मपूजा संपूर्ण।



उत्तम सत्य धर्म पूजा.

अडिल्ल छन्द

सत्य सरीसो धर्म जगत में है नहीं,
सत्य धरम परभाव लहै शिव की मही।

तातैं भव दुख हरण सत्य वृष भाइये,
यहां थापि मैं जजौं सत्य मन लाइये॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमसत्यधर्माङ्गा अत्र अवतरर संवौषट्। अत्र तिष्ठर
ठः ठः स्थापनं। अत्र मम सन्निहितो भवर वषट्।

अथाष्टकं - त्रिभङ्गी छन्द

जो झूठ विनाशै जग विसवासै, पुण्य प्रकाशै हितदानी।
सब दोष निवारै समता धारै शिवपुर कारै गुण थानी॥

जग आदरकारी मोह निवारी, आनंदधारी जग मानौ।
एसो सति धर्मा काटत कर्मा, जल ले परमा जजि जानौ॥

ॐ ह्रीं सत्यधर्माङ्गाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वं।

सति सो वृष नाही या जग माहीं, पूज्य कहाही शिव थानी।
सब औगुण धोवै पाप बिलोवै, धर्म मिलावै दुख हानी॥

पावत शिवनारी मुनिजन प्यारी, सुख करतारी भवि मानौ।
एसो सति धर्मा काटत कर्मा, गंध ले परमा जजि जानौ॥

ॐ ह्रीं श्री सत्यधर्माङ्गाय संसारताप विनाशनाय चंदनं निर्वं।

या सत्य समानौ रतन न आनौ, सम्यक दानौ शिवकारी।
भवदधिको नावा अशुभ गमावा, सरल स्वभावा दुखहारी ॥
सिधलोक नसैनी शिवसुख दैनी, ध्यावत जैनी अनलानौ।
एसो सति धर्मा काटत कर्मा, अक्षत ले परमा जजिजानौ ॥

ॐ ह्रीं सत्यधर्माङ्गाय-अक्षयपदप्राप्तयेऽक्षतान् निर्व.।

सति सौ नहिं मिन्ता मिटन चिन्ता, अघ अरिहन्ता जसदाई।
सति जगत पियारो भव उद्धारो दुख जलतारो थुति गाई ॥
याकौ मुनि ध्यावै शिवसुख पावै, पाप गमावैं भव हानौ
एसो सति धर्मा काटत कर्मा, पुष्पं परना जजि जानौ ॥

ॐ ह्रीं श्री सत्यधर्माङ्गाय गामबाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्व.।

सति धर्म सु पूजै सब अघ धूजै, शिवमग सूजै अधिकाई।
यातै वृष सारा काज संवारा, अशुभ विहारा सिद्धि दाई ॥
सति सारा नीका सुखदा जीका, शिवमग टीका शुभआनौ।
एसो सति धर्मा काटत कर्मा, ले चरु परमा जजि जानौ ॥

ॐ ह्रीं श्री सत्यधर्माङ्गाय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं नि.।

सति धर्म उजाला जग का पाला, विभ्रम टाला धर्म करा।
यह ज्ञान उजालै अशुभ सु टालै, संजम पालै झूठ हरा ॥
सति प्रिति उपावै वैर गमावै, जो थुति लावै उर ज्ञानौं।
एसो सति धर्मा काटत कर्मा, दीपक परमा जजि जानौ ॥

ॐ ह्रीं श्री सत्यधर्माङ्गाय मोहान्धकार-विनाशनाय दीपं निर्व.।

सति धर्म प्रभावै मुनि शिव जावै, जगजस गावै थुतिलाई।
सति धर्म जु मूला अघ-क्षय थूला, झूठ कुसूला दहभाई ॥

सत धर्म अनूपा शुभ रस कूपा, पूण्य स्वरूपा मग मानौ ।
 एसो सति धर्मा काटत कर्मा, धूप जु परमा जजि जानौ ॥

ॐ ह्रीं श्री सत्यधर्माङ्गाय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्व. ।

सतिधर्म अभ्यासौ शिवथल वासौ, पाप विनासौ हितकारी ।
 गुण ज्ञान बढ़ावै आदर ल्यावै, पुण्य उपावै सति भारी ॥
 जगमें अति नीका बन्धु जीका, शिवतिय पीका गुण थानौ
 एसो सति धर्मा काटत कर्मा, ले फल परमा जजि जानौ ॥

ॐ ह्रीं श्री सत्यधर्माङ्गाय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्व. ।

जल चन्दन नीका अक्षत टीका, फूल चुनीका माल करौ ।
 चरु दीप सु लाया धूप बनाया, श्रीफल आया अर्घ धरौ ॥
 उर भक्ति बढ़ाई मुख थुति गाई, सत सब भाई पहिचानौ ।
 एसो सति धर्मा काटत कर्मा, अर्घ्य परमा जजि जानौ ॥

ॐ ह्रीं श्री सत्यधर्माङ्गाय अर्घ्य पदप्राप्तयेऽर्घ्यं निर्व. स्वाहा ।

प्रत्येकाध्याणि - चौपाई

क्रोध सहित जिय सत नहिं कहै, झूठ वचन तैं अघ शिर लहै ।
 क्रोध रहित जे वचन प्रमानि, सो सतधर्म चयो जिनवानी ॥

ॐ ह्रीं श्री क्रोधातिचाररहित-सत्यधर्माङ्गाय अर्घ्यं नि. ।

लोभ सहित जिय झूठ बखानि, सांच धरम ताको नहिं मानि ।
 लोभ रहित सत धरम सुभाय, सो सत धर्म जजौं थुतिगाय ॥

ॐ ह्रीं श्री लोभातिचाररहित-सत्यधर्माङ्गाय अर्घ्यं नि. ।

सांच न कहै भीतियुत जीव, बोले असत सु वचन सदीव ।
 भयतैं रहित सत्य वच भाख, सो सत धर्म करो थुति लाख ॥

ॐ ह्रीं श्री भयातिचाररहित-सत्यधर्माङ्गाय अर्घ्यं नि. ।

हास्य सत्य को नाशनहार, तातै सहै महा दुख भार।
हास्य रहित सब धर्म कहाय, सो सत धर्म जजौं थुति गाय॥

ॐ ह्रीं श्री हास्याचाररहित-सत्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

जिन आज्ञा बिन भाखै बैन, पूर्वापर वच ठीक कहै न।
एसे दोष रहित सति भाय, सो सत धर्म जजौ थुति गाय॥

ॐ ह्रीं श्री जिनाज्ञालंघनातिचाररहित-सत्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

गीता छन्द

जा देशमें जिस वस्तुको तिस मानिए सो सति सही।
जिम भातकी गुजरात मालवदेश में चोखा क ही॥
करनाटकमें कूलू कहैं द्राविड मे चौरु बखानिये।
इमजानि जनपद सत्यदो जजि हर्ष उरमें आनिये॥

ॐ ह्रीं श्री जनपद-सत्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

अडिल्ल छन्द

बहु नर ताको कहैं तिसो ही मानिये।

रंक नाम लक्ष्मीधर जाही बखानिये॥

तो यह रूढी नाम सत्य संवृत कही।

या नयतैं सत जानि जजौं सत वृष सही॥

ॐ ह्रीं श्री संवृतसत्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. स्वाहा।

काहु नर आकार तथा पशु के सही।

चित्र काष्ठ में थापि नाम नर पशु कही॥

यह थापन सत भेद शास्त्र में गाड़यो।

ताकों सत वृष जानि जजौं मन लाड़यो॥

ॐ ह्रीं श्री स्थापनसत्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. स्वाहा।

जाकों जगमें नाम प्रसिद्ध बखानिये ।

सोई ताको नाम सत्य सो मानिये ॥

नाम सत्य सो जानि वानि जिन इमि कही ।

ताको मन वच काय जजौं शुभ सुखमही ॥

ॐ ह्रीं श्री नामसत्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. स्वाहा ।

पीत श्याम अरु रक्त श्वेत गोरा सही ।

रूपवान इत्यादि अंग बहुतैं कही ॥

रूप सत्य सो जानि कह्यो जिनवानिजी ।

ऐसो सत्य सु जानि जजौं सुखदानजी ॥

ॐ ह्रीं श्री रूपसत्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. स्वाहा ।

कही वस्तु यह यातैं छोटी है सही ।

यातैं है यह बडी अपेक्षा इमि कही ।

याको नाम प्रतिति सत्य सो जानिये ।

ताको भी है जजौं भक्ति उर आनिये ॥

ॐ ह्रीं श्री अपेक्षासत्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. स्वाहा ।

जो नरपतिको पुत्र ताहि राजा कहै ।

सो नैगमनय जानि सत्य तातै यहै ।

यहीसत्य व्योहार जिनेश्वर धुनि कही ।

मैं जजिहौं कर भक्ति नाय मस्तक सही ॥

ॐ ह्रीं श्री व्यवहार-सत्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. स्वाहा ।

शक्ति इन्द्रमें इसी लोक उलटा करै ।

सो तो लोक अनादि उलटि कैसे धरैं ॥

पै यह शक्ति अपेक्षा वचन प्रमान है।

यह सम्भाव सत्य जजौं थिति आन है ॥

ॐ ह्रीं श्री सम्भावना-सत्यधर्माङ्गायार्घ्यं नि. स्वाहा।

जीव अनन्त अनादि नजर आवै नहीं।

द्रव्य अमूर्ती पांच नरक सुरकी मही ॥

ये नहि देखें नयन सूत्रसों जानिये।

भाव सत्य सो जानि जजों मन आनिये ॥

ॐ ह्रीं श्री भावसत्यधर्माङ्गायार्घ्यं नि. स्वाहा।

किसी वस्तुकी उपमा जाको लाइये।

ज्यों दानी नर देख कल्पद्रुम गाइये।

याको उपमा सत्य नाम जानौं सही।

सो मैं पूजौं भक्ति नाय मस्तक मही ॥

ॐ ह्रीं श्री उपमा-सत्यधर्माङ्गायार्घ्यं नि. स्वाहा।

इत्यादिक बहु भेद सत्य के जानिये।

कहे देव जिनराय अपनी वानिये ॥

सो मैं मन वच काय शुद्ध थुति गायजीं।

पूजौं सत्य सुधर्म अरथ कर लाइजी ॥

ॐ ह्रीं श्री सत्य-धर्माङ्गायार्घ्यं नि. स्वाहा।

जयमाला (बेसरी छन्द)

सत्य धरम जग पूज्य बताया, सत्य श्रेष्ठव्रत जिनधुनि गाया।

सत्य धरम भवदधिको नावा, सो सत धर्म जजौं शुध भावा ॥

सत्य धरम वर अंग प्रवीना, सत्य धरम ज्यों कंचन मीना ।
 सत्य धर्मका सबको चावा, सो सत धर्म जजौं शुभ भावा ॥
 सत्य धरम का राखनहारा, सत्य धरम मुनिजनको प्यारा ।
 सत्य शिरोमणि धर्म कहावा, सो सत धर्म जजौं शुभ भावा ॥
 सत्य समान और नहिं मिंता, सत्य धर्म मेटे भव चिंता ।
 सत्य करै अघतै निरदावा, सो सत धर्म जजौं शुध भावा ॥
 सत्य धरम अपयश क्षयकारी, सत्य सुरक्षा करैं हमारी ।
 सतहीका सुरनर जस गावा, सो सत धर्म जजौं शुध भावा ॥
 सत्य सहित सब सार्थक धर्मा, तासौ कटैं चिरंतन कर्मा ।
 सत्य समान और नहि ठावा, सो सत धर्म जजौं शुध भावा ॥
 सत्य जगतमें पूजा पावै, सत्य धरम शिव राह बतावै ।
 सत्य जजौं सति धर्म लहावा, सो सत धर्म जजौं शुध भावा ॥
 धर्म सरोवर में सत नीरा, सत्य धर्म खोवै सब पीरा ।
 सत्य धर्म सों कुगति न पावा, सो सत धर्म जजौं शुधभावा ॥

दोहा

सत सागर में जे रमें, ते वृष नायक जोय ।

जजै धर्म सतको सही, मन वच काया सोय ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमसत्यधर्माङ्गाय पूर्णार्घ्यं नि. ।

इति उत्तम सत्य धर्म पूजा ।



उत्तम शौच धर्म पूजा

बेसरी छन्द।

शौच धर्म पर चाह निवारै, तनतैं हू ममता निरवारै।
जग वांछा तजि निर्मल भावा, शौच धर्म पूजों कर चावा ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमशौचधर्माङ्गाय अत्र अवतरत् संवौषट् अत्र तिष्ठत्
ॐ ठः। अत्र मम सन्निहितो भवत् वषट्।

अथाष्टकम् - पद्मिणी छन्द।

जल क्षीरसमुद्रको सुभग लाय, धरि कनकपात्र में भक्तिभाय।
तन धरन मिटै वह फल सुजान, मैं शौच धर्म जजि हर्ष आन।

ॐ ह्रीं श्री उत्तमशौचधर्माङ्गाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि।
वसि बावन चंदन नीर आन, अलि गुंजत मानों करत गान।
धरि कनकपियाले भक्तिजान, मैं शौच धर्म जजि हर्ष आन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमशौचधर्माङ्गाय संसारतापविनाशनाय चंदनं नि।
उज्ज्वलअखंड शुभ गंध दाय, अक्षतअनूप लखिशशिलजाय।
कनपात्र विषै धरि भक्ति आन, मैं शौच धर्म जजि हर्षआन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमशौचधर्माङ्गाय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् नि।
जे फूल कल्पद्रुमके मनोग, आसक्त भ्रमर थित करत भोग।
तेन गुंथि मालउर भक्ति ठान, मैं शौच धर्म जजि हर्ष आन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमशौचधर्माङ्गाय कामबाण विध्वंशनाय पुष्पं नि।
शुभ मोदक आदि अनेक भाय, रसना रंजन नैवेद्य लाय।
धरि पुरट थालमें भक्ति ठान, मैं शौच धर्म जजि हर्ष आन ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमशौचधर्माङ्गाय-क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं नि।

मणि दीपक वा घृतमय संजोय, मनुनिबिडमोह तम नाशहोय ।
अरु ज्ञान प्रकाश करै महान, मैं शौच धर्म जजि हर्ष आन ।
ॐ ह्रीं श्री उत्तमशौचधर्माङ्गाय मोहान्धकार-विनाशनाय दीपं नि. ।

शुभ धूप अगरजा गंध लाय, कन धूपायन ताकों खिवाय ।
मिश धूम रूगों वसुविधि उड़ान, मैं शौच धर्म जजि हर्ष आन ॥
ॐ ह्रीं श्री उत्तमशौचधर्माङ्गाय दृष्टाष्टकर्मदहनाय धूपं नि. ।

ले फल बादाम खारक अनूप, अरु पुंगी फलआदिक स्वरूप ।
धरि भक्तिभाव मन मांहि सोर्य, मैं शौच जजौं शुध भाव होय ॥
ॐ ह्रीं श्री उत्तमशौचधर्माङ्गाय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि. ।

जल गंधाक्षत वर कुसुम होय, चरु दीप धूप फल सुभगजोय ।
कर अरघ धरौं कनपात्र लाय, मैं जजौं शौच वर भक्तिभाय ॥
ॐ ह्रीं श्री उत्तमशौचधर्माङ्गायार्घ्यं नि. स्वाहा ।

अथ प्रत्येकार्घ्याणि (चाल मणुयणानन्दकी।)

देवके सकल सुख जानि चंचलमयी ।

आयु पल्य सागरकी तुरत ही क्षय गयी ॥

जान सब अथिर उरभाव निर्मल करै ।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥१॥

ॐ ह्रीं श्री देवसुखवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्यं नि. ।

चाह चक्री तने सुखनको उर नहीं ।

सहस छिनवै तिया और घट्खंड मही ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥२ ॥

ॐ ह्रीं श्री चक्रिपदभोग-वांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि.।
खण्ड तिनको जु राज नारि बहु जानिये।

चारि विधि सैन सुर नर खगादि मानिये ॥

जान सब अथिर उरभाव निर्मल करै।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥३ ॥

ॐ ह्रीं श्री नारायणपदभोगवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि.।
कामदेवको सुरूप देखि देव मन हरे।

भोग वांछित सकल देव सेवा करें ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥४ ॥

ॐ ह्रीं श्री कामदेवपदभोगवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि.।
आठ परकार सपरस विषै जानिये।

द्रव्य क्षेत्रकाल अनुसार भाव मानिये ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥५ ॥

ॐ ह्रीं श्री स्पर्शनेन्द्रिय-भोगवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि.।
पांच परकार रस जानि शुभ सारजी।

भोग वांछै सभी जगत दुखकारजी ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥६ ॥

ॐ ह्रीं श्री रसनेन्द्रियभोगवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

घ्राण इन्द्रियनते गंध दो हैं सही ।

ताहि अनुकूल पाय जीव साता लही ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै ।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥७॥

ॐ ह्रीं श्री घ्राणेन्द्रियभोगवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि. ।

चक्षु इन्द्रियतने पांच रूप भोग हैं ।

ताहि चाहें अमर नाहिं तन रोग है ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै ।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥८॥

ॐ ह्रीं श्री चक्षुरिन्द्रियभोगवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि. ।

राग संगीत इन आदि सुर साजिये ।

सप्त स्वर भेद कर्ण भोग मन राजिये ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै ।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥९॥

ॐ ह्रीं श्री कर्मणेन्द्रियभोगवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि. ।

भोग वांछित घने चित्त आधारजी ।

ताहि सेयर जीव सुख लहे अपारजी ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै ।

पूजि शौच धर्मको जु शौच स्थानक धरै ॥१०॥

ॐ ह्रीं श्री मनवांछितभोगवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि. ।

तन अशुभ आपको सु चाम मय जानिये ।

सप्त मल घात पूरित सु घिन आनिये ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥११ ॥

ॐ ह्रीं श्री तनसम्बन्धीभोगवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

रतन नवधादि भरपूर घरमें सही।

कोटि नित दान देते सु क्षय हो नहीं ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥१२ ॥

ॐ ह्रीं श्री धनवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

रूपमें शची समान नारी घरमें घनी।

शीश आज्ञा धरें प्रीत रस में सनी ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥१३ ॥

ॐ ह्रीं श्री वनिताभोगवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

कामदेव के समान पुत्र रूप धारजी

विनयवान सर्व बलवन्त तेज सारजी ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥१४ ॥

ॐ ह्रीं श्री पुत्र भोगवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

भ्रात बहु विनय जुत आनि-पालक सही।

संग तिन भोग भोगी जीव साता लही ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥१५ ॥

ॐ ह्रीं श्री भ्रातृसुखवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

मन्त्र दाता विपति मांहि मित्र सारजी।

प्रेम अन्तरङ्ग धारि नित्य रहें लारजी ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥१६ ॥

ॐ ह्रीं श्री मित्रानुबन्धवांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

मित्र तिय पुत्र सब घरतने दासिया।

आदि परिजन सकल और घरवासिया ॥

जानि सब अथिर उरभाव निर्मल करै।

पूजि शौच धर्मको जु शौच थानक धरै ॥१७ ॥

ॐ ह्रीं श्री सकलपरिजनानुकारित्ववांछा-विहीन-शौचधर्माङ्गायार्घ्य नि.

जयमाला - दोहा

शौच सकल उर सुख करै, हरै लोभ मद सोइ।

मोक्ष धरै मरनो टरै, ताहि जजैं शिव होइ ॥

शौच भावतैं पुण्य बड़ोई, कटै पाप जगमें जस होई।

शौच भाव संतनको प्यारा, जजौं शोच यह धर्म हमारा ॥

शौच भाव पर-चाहे निवारै, शौच भाव दुख शोकविडारे।

शौच सरवको बड़ा सहारा, जजौं शौच यह धर्म हमारा ॥

शौच सांच के बड़ा सनेहा, शौच मुनिव्रत की इक देहा।

शौच भाव मंगल करतारा, जजौं शौच यह धर्म हमारा ॥


शौच भावमें नांहि कषाया, शौच भाव सब जग काभाया।
 शौच धर्मका शरण गहारा, जजौं शौच यह धर्म हमारा ॥
 शौच धर्मको मुनिगण सेवैं, ताफल स्वयं सिद्ध थललेवैं।
 शौच धर्म समता रस धारा, जजौं शौच यह धर्म हमारा ॥
 शौच समान और नहिं मिंता, शौच भाव टारै सब चिंता।
 शौच सदा सब जियका प्यारा, शौच जजौं यह धर्म हमारा ॥

दोहा

शौच सार संसार में करै पवित्र जु भाव।
 तातैं धारो शौचको, भलो मिलो यह दाव ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तम शौचधर्माङ्गाय-पूर्णार्घ्यं नि. स्वाहा।

इति उत्तम शौच धर्म पूजा।



पस्सरोपग्रहो जीवानाम्

उत्तम संयम धर्म पूजा

अडिल्ल छन्द

संयम धर्म अनूप दोय विधि जानिये।

इक रक्षा षट् काय दया उर आनिये ॥

मन इन्द्रिय वश करै दूसरो संयमा।

सो में पूजाँ थापि लहाँ उत्तम रमा ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमसंयम धर्माङ्ग! अत्र अवतरर संवौषट्। अत्र तिष्ठर ठः ठःस्थापनं। अत्र मम सन्निहितो भवर वषट्।

अथाष्टकम् बेसरी छन्द।

निर्मल नीर भाव कर भीजै, मन मनोज्ञ बासन धरि लीजै।

जिनको जन्म मरणगद जावैं, सो संयम वृष जजि शिरनावै ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमसंयमधर्माङ्गाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि.।

चन्दन शीतल भावन भाया, तापर मन भंवरा जु लुभाया।

जग आताप तासु नशि जावैं, सो संयम वृष जजि शिरनावै ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमसंयमधर्माङ्गाय संसारताप विनाशनाय चंदनं नि.।

शालि अखंड अखत ले भाई, शुभ परणति भाजन भरवाई।

जो अखंड थानक ले धावैं, सो संयम वृष जजि शिर नावै ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमसंयमधर्माङ्गाय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् नि.।

फूल प्रफुल्लित भाव सु लीजै, भक्ति तारमें माल करीजै।

मदन वाण हरि सो बल पावैं, सो संयम वृष जजि शिरनावै ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमसंयमधर्माङ्गाय कामबाणविध्वंशनाय पुष्पं नि.।

भाव अवांछित कर नैवेद्यं, नाना रस मय ले निरखेद्यं ।
भूख नाशि चित साता पावै, सो संयम वृष जजि शिरनावै ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमसंयमधर्माङ्गाय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि. ।
सम्यग्ज्ञान दीप करि भाई, शुद्ध भाव भाजन धरवाई ।
ताके फल अज्ञान मिटावै, सो संयम वृष जजि शिरनावै ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमसंयमधर्माङ्गाय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं नि. ।
कर्म आठमय धूप करीजै, धरम सु ध्यान अगनि खेवीजै ।
ताफल दुष्ट कर्म नशि जावै, सो संयम वृष जजि शिरनावै ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमसंयमधर्माङ्गायदुष्टाष्टकर्मदहनाय धूपं नि. ।
उत्तम परिणति को फल कीजै, शुद्धभाव कन थाल धरीजै ।
तातै मनवांछित फल पावै, सो संयम वृष जजि शिर नावै ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमसंयमधर्माङ्गाय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि. ।
आठौ द्रव्य अमोलिक जानी, प्रासुक भाव सहित हित दानी ।
पद अनार्घ्य तासु फल पावै, सो संयम वृष जजि शिरनावै ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमसंयम धर्माङ्गाय अनर्घ्य पद प्राप्तयेऽर्घ्यं नि. ।

प्रत्येकार्घ्याणि । - ॥ चौपाई ॥

ताल कूप खाई न खुदाय, भूमि काय तब दया पलाय ।
पृथ्वीकायकी रक्षा होय, संयम धर्म जजो मद खोय ॥१॥

ॐ ह्रीं पृथ्वीकायजीवरक्षणरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि. ।
अनगालो जल बरतै नाहिं, नदी तलाब कुड़ावै नाहिं ।
जलकायिक जिय रक्षा करै, संयम वृष जजि शिवतियवरै ॥

ॐ ह्रीं जलकायिकजीवरक्षणरूपसंयम-धर्माङ्गायार्घ्यं नि. ।

अग्नि जलावन काज न करै, नाहिं बुझावै करुणा धरै।
अग्निकाय जिय रक्षा होय, संयम धर्म जजौ शुचि होय ॥

ॐ ह्रीं अग्निकायजीवरक्षणरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

पवन कायकी रक्षा सार, पंखा आदि काज नहिं धार।
पवनकाय जिय रक्षा होय, संयम धर्म जजौ मद खोय ॥

ॐ ह्रीं वायुकायिकजीवरक्षणरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

फूल पात तरु तोड़े नाहिं, वन बागादि लगावै नाहिं।
हरितकाय जिय रक्षा होय, संयम धर्म जजौ मद खोय ॥

ॐ ह्रीं वनस्पतिकायिकजीवरक्षणरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

इल्लो जोंक गिंडोला जान, बाला आदि जीव पहिचान।
बे इन्द्रिय जिय रक्षा होय, संयम धर्म जजौ मद खोय ॥

ॐ ह्रीं द्वीन्द्रियजीवरूपरक्षणसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

चीटी कुंथवा खटमल लोक, जुआ तिबूला जिय करिठीक।
ते-इन्द्रिय जिय रक्षा होय, संयम धर्म जजौ शुचि होय ॥

ॐ ह्रीं त्रीन्द्रियजीवरक्षणरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

मक्खी भँवरा टीडी जान मच्छर आदिजीव पहिचान।
चउ-इन्द्रिय जिय रक्षा होय, संयम धर्म जजौ मद खोय ॥

ॐ ह्रीं चतुरिन्द्रियजीवरक्षणरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

जीव असैनी बहुत प्रकार, जलचर सर्प आदि निर धार।
पंचेन्द्रिय जिय रक्षा होय, संयम धर्म जजौ शुचि होय ॥

ॐ ह्रीं असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव रक्षणरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

नर सुर नारकि सब जिय संज्ञि, तिर्यच गति में संज्ञि असंज्ञि।
संज्ञी जियकी रक्षा होय, संयम धर्म जजौ मद खोय ॥

ॐ ह्रीं संज्ञीपंचेन्द्रियजीवरक्षणरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

सपरस इन्द्रिय विषय निवार, वीतरागता वरतै सार।
शीत उष्ण उर चाह न होय संयम धर्म जजौं शुचि होय ॥

ॐ ह्रीं स्पर्शनेन्द्रिय विषयवर्जनरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

रसनेन्द्रिय पांच भट जान, तिन वशभये सकल गुणखान।
रसनेन्द्रियके वश नहिं होय, संयम धर्म जजौं मद खोय ॥

ॐ ह्रीं रसनेन्द्रियविषयवर्जनरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

घ्राणेन्द्रियके भट दुई जान, नित प्रसाद जिय दुख लहान।
घ्राणेन्द्रियके वश नहिं होय, संयम धर्म जजौं शुचि होय ॥

ॐ ह्रीं घ्राणेन्द्रियविषयवर्जनरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

चक्षु विषय भट जानों पांच, ते दुख देय सकल जियसांच।
चक्षु अक्षके वश नहिं होय, संयम धर्म जजौं मद खोय ॥

ॐ ह्रीं चक्षुरिन्द्रियविषयवर्जनरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

कर्णेन्द्रिय शुभाशुभ वैन, ता वश होय सुरासुर ऐन।
शब्द शुभाशुभ वश नहिं होय, संयम धर्म जजौं शुचि होय ॥

ॐ ह्रीं कर्णेन्द्रियविषयवर्जनरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

मन चंचल कपिकी गति जिसौ ताके वश जगजिय दुखफँसौ।
मनके वश कबहूँ नहिं होय, संयम धर्म जजौं मद खोय ॥

ॐ ह्रीं मनोविषयवर्जनरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

सब जियमें धरि समता भाव, तप संयम करिबेको चाव।
आरत रौद्र भाव नहिं होय, संयम भाव जजौं शुचि होय ॥

ॐ ह्रीं सामायिक रूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

जो प्रमादवश संयम जाय, प्रायश्चित ले पुनि धिर थाय।
छेदोपस्थापन नामा सोय, संयम धर्म जजौं मद खोय ॥

ॐ ह्रीं छेदोपस्थापनारूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्य नि.।

दोय कोष नित गमन कराय, तन निहार नहिं बहु रिध पाय।
सो परिहार विशुद्धी जोय, संयम धर्म जजौं शुचि होय ॥

ॐ ह्रीं परिहारविशुद्धि संयम रूप धर्माङ्गायार्घ्य नि.।

सकल कषाय नाश ह्वै जाय, नाम मात्र कछु लोभ रहाय।
सूक्ष्म सांपराय है सोय, संयम धर्म जजौं मद खोय ॥

ॐ ह्रीं सूक्ष्म सांपरायरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्य नि.।

सकल मोह नाशै जिस काल, या उपशमै मोह जंजाल।
यथाख्यातमें रहे न मोह, संयम धर्म जजौं शुचि होय ॥

ॐ ह्रीं यथाख्यातरूपसंयम धर्माङ्गायार्घ्य नि.।

अडिल्ल छन्द।

इस प्रकार बहु विधि को संयम जानिये।

शिव-सुखदायक होय दयाकी खानिये ॥

पूरण मुनिके होय धर्म हितदायजी।

ताहि जजौं मैं अर्घ थकी यश गायजी ॥

ॐ ह्रीं उत्तमसंयम धर्माङ्गाय महार्घ्य नि.।

जयमाला। (बेसरी छन्द)

संयम सार जगतमें भाई संयमतैं जिय शिव सुख पाई।

संयम सत्त्वकर्म साखनहासा, संयम है शिखरताज हम्मसा ॥॥

म सकलजीव सुखदाई, संयम जगत जीव बड़भाई।
 म जगत गुरुनिको प्यारा, संयम है शिरताज हमारा ॥
 ण संयम मुनिजन पावै, संयमतेँ ही शिवमग धावै।
 म अघनाशन असिधारा, संयम है शिरताज हमारा ॥
 म मुकुट धर्मधर धारै, संयमतेँ विषधर उर हारै।
 म जामन मरण निवारा, संयम है शिरताज हमारा ॥
 म के सब दास बताये, संयम बिना जगत भरमाये।
 म मोह सुभटको मारा, संयम है शिरताज हमारा ॥
 म मनका जीतनहारा, संयम इन्द्रिय रोग निवारा।
 म बेलिको नाशनहारा, संयम है शिरताज हमारा ॥
 म जग-विरक्त जिय भावै, संयमको मुनि जन जसगावै।
 म धर्म बहू अघ जारा, संयम है शिरताज हमारा ॥
 म भवसागर नवका सी, संयम धरि जिय शिवपुर जासी।
 म कर्म कलंक निवारा, संयम है शिरताज हमारा ॥

दोहा

संयम जगका बन्धु है, संयम मात रु तात।
 संयम भवभव शरण है, नमों 'टेक' अघ जात ॥

ॐ ह्रीं उत्तमसंयमधर्माङ्गाय पूर्णार्घ्यं नि.।

इति उत्तम संयम धर्म पूजा।



उत्तम तपो धर्म पूजा

अडिल्ल - छन्द।

अन्तर बाहर भेद कहे तप सारजी।

दुविध भाव अघहार करन भव पारजी ॥

तप बारह परकार कर्म गज केहरी।

मैं पूजौं इस थानि जानि नित शुभ धरी ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमतपोधर्माङ्ग ! अत्र अवतरर संवौषट् । अ
तिष्ठर ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सन्निहितो भवर वषट् ।

अथाष्टकम् । (चौपाई ।)

भवजलतरण नाव तप भाव, करि अघनाश जु दैव उछाव
ऐसो तप निर्मल जल लाय, पूजौं जामन मरण नशाव ।

ॐ ह्रीं उत्तमतपोधर्माङ्गाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि ।
त्रिभुवन में तप तिलक समान, याको मुनि धरें हित ठान
तपहर चन्दन सुभग मँगाय, मैं पूजौं भव तप नशि जाय ।

ॐ ह्रीं उत्तमतपोधर्माङ्गाय संसारताप-विनाशनाय चदनं नि ।

बेसरी छन्द ।

तपपै निरत लखे बहुतेरे, तपको जपै जु साहब मेरे
ऐसो तप अक्षत शुभ आनो, पूजौं फल अक्षय उपजानो ।

ॐ ह्रीं उत्तमतपोधर्माङ्गाय अक्षयपदप्राप्तयेऽक्षतान नि ।

पद्धडी छन्द ।

यह तप त्रिभुवन में पूज्य सार, यह तप नाना मंगल सुधार
ऐसो तप बहु शुभ फूल लाय, मैं पूजौं तसु फल मदन जाय ।

ॐ ह्रीं उत्तमतपोधर्माङ्गाय कामबाणविध्वंशनाय पुष्पं नि ।

।प सुर वंछे पै नाहिं पाय, तातै सुर पूजै तप सुभाय।
।सो तप चरु ले भक्ति लाय, मैं पूजौं तसु फल क्षुधाजाय ॥

ॐ ह्रीं उत्तमतपोधर्माङ्गाय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि.।

।प कल्पवृक्ष वांछित सुदेई, तप दीप अनोपम तम हरेई।
।। तपको दीपक रतन लाय, मैं पूजौं तसु फल ज्ञान पाय ॥

ॐ ह्रीं उत्तमतपोधर्माङ्गाय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं नि.।

।प ही तै तीर्थङ्कर जु होय, तप ही तैं शिव लहि कर्म खोय।
।सो तपको शुभ धूप लाय, मैं पूजौं विधि ईधन जराय ॥

ॐ ह्रीं उत्तमतपोधर्माङ्गाय दुष्टाष्ट कर्मदहनाय धूपं नि.।

।प पूजत जग करि पूज्य होय, तप औषधि दुखगद हरन जोय।
।। तपको बहुविधि फलमंगाय, मैं पूजौं तसुफल शिवलहाय ॥

ॐ ह्रीं उत्तमतपोधर्माङ्गाय मोक्षफल प्राप्तये फलं नि.।

।पतैं उर करुणा भाव होय, तप तपैं जगत में पूज्य सोय।
।। तप को उत्तम अर्घ लाय, मैं पूजौं पद अनर्घ लहाय ॥

ॐ ह्रीं उत्तमतपोधर्माङ्गाय अनर्घ पदप्राप्तयेऽर्घ्यं नि.।

प्रत्येकाध्याणि। गीता छन्द।

।प सार जगमें भेद बारह भव उदधिको नाव है।
।। पाप दाहक तप करन हित साधु मन उच्छ्राव हैं ॥

।प देय सुख दुख दूर करि है, और कहँ लग गाइये।
।। इमि जानि पूजौं अर्घ लेकर, तासु फल शिव जाइये ॥

ॐ ह्रीं उत्तमतपोधर्माङ्गाय अर्घ्यं नि.।

बेसरी छन्द।

जिन गुण सम्पत्ति है तप मीता, त्रेसठ वास होय जिन गीत
भिन२ तिथियनमें सुखदाई, यह तप अनशनजजिगुणगाई
ॐ ह्रीं जिनगुणसम्पत्ति तपोधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

कर्म क्षपण तपके उपवासा, इकसो अड़तालिस जिन भास
भिन२ तिथियनमें सुखदाई, यह तप अनशन जजि गुण गाई
ॐ ह्रीं कर्मक्षपणतपोधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

जोगी रासा।

सिंह निष्क्रिडित तप दिन सौ, अरु जान सतत्तरिभा
तिनमें इकसौ जानि पैतालिस, वास कहै सुखदाई
बाकी बत्तिस जानि पारणा यह विधि जिन धुनिमांह
यह अनशन तप जानि जजौं मैं अर्घ लेय हित ठाहीं
ॐ ह्रीं सिंहनिष्क्रिडित तपोधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

भद्र सर्वतो तपके शुभ दिन एक सैकड़ा जान
है उपवास पचत्तर अद्भुत पारण पचविस मानों
इसकी विधि भिन२ जिन भासी सो तप अनशन गाय
अर्घ लेय मैं पूजौं मन वच काय भक्ति जुत भाया
ॐ ह्रीं सर्वतोभद्र-तपोधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

महा सर्वतो भद्र बडो तप दिन दोसै पैंताल
इकसौ छिनवै वास कहे जिन पारण गिन नव चाली

ताकी विधि जिन शासनमें लखि,विधिजुत करताभाई
यह अनशन तप जानि जजौं मैं, अर्घ लेय हितदाई ॥

ॐ ह्रीं महासर्वतोभद्र तपोधर्माङ्गायार्घ्यं नि. स्वाहा ।

लघु निष्क्रीडितके दिन जिन धुनि बीसी चारि कहे हैं ।
तिन में बीस जु कहे पारणा साठि उपास लहे हैं ॥
करनेकी विधि जिन धुनिमें लखि ताको करिये भाई ।
यह तप अनशन जानि जजौं मैं अर्घ आनि सुखदाई ॥

ॐ ह्रीं लघुनिष्क्रीडित तपोधर्माङ्गायार्घ्यं नि. ।

बेसरी छन्द।

नव पारण उपवास पचीसा दिन चौंतीस कहे जगदीशा ।
मुक्तावलितपविधिजिनगाई, यह अनशन तपजजिसुखदाई ॥

ॐ ह्रीं मुक्तावली तपोधर्माङ्गायार्घ्यं नि. ।

मास मासके छह उपवासा, एक वरष दुइ सत्तरि खासा ।
यह कनकावलीविधि श्रुतगाई, यह तप अनशन जजिसुखदाई ॥

ॐ ह्रीं कनकावलि तपोधर्माङ्गायार्घ्यं नि. ।

सो अनशन पारन उनईसा, इकसौ उनईस दिन शुभ दीसा ।
जिन भाषित आचामल भाई, यह अनशन तपजजि सुखदाई

ॐ ह्रीं आचाम्ल तपोधर्माङ्गायार्घ्यं नि. ।

चौबिस वास पारना चौई, सब दिन अड़तालीस गिनोई ।
तपजुसुदर्शनविधि श्रुतजानो, यह अनशन तपजजिसुखदानी ॥

ॐ ह्रीं सुदर्शन-तपोधर्माङ्गायार्घ्यं नि. ।

एक वरस तक वास करंता, उत्तम तप जिनवाणी भणंता ।
ताके भेद बहुत है भाई, यह अनशन तप जजि सुखदाई ॥

ॐ ह्रीं उक्कृष्ट-तपोधर्माङ्गायार्घ्यं नि ।

भूख प्रमाण थकी लघु खईये, सो अवमौदर तप वरनईये ।
यह तप विधि भूधर पवि माना, सो मैं जजौं अरघ कर आना ॥

ॐ ह्रीं अवमौदर्यं तपोधर्माङ्गायार्घ्यं नि ।

आज इसी विधि भोजन पड़ये, तो हम लेय नतर थिर रहिये ।
ऐसी विधि प्रतिज्ञा ठानै, सो तप जजौं कर्म गिरि भानै ॥

ॐ ह्रीं व्रतपरिसंख्यान तपोधर्माङ्गायार्घ्यं नि ।

त्यागै इक दुई त्रय रस भाई, चार पांच षट् तजि नहिं खाई ।
ऐसो रस परित्याग सु ठानै, सो तप जजौं कर्म गिरि भानै ॥

ॐ ह्रीं रस परित्याग तपोधर्माङ्गायार्घ्यं नि ।

आशन दिढ़ भू सोधि करावै, थिरता भजै सु तन न हिलावै ।
शय्यासन तप या विधि ठानै, सो तप जजौं कर्म गिरि भानै ॥

ॐ ह्रीं श्रीविविक्तशय्याशन तपोधर्माङ्गायार्घ्यं नि ।

काय कसैं मन आनन्द पावै, सो तप काय कलेश कहावै ।
शोक हरै सुख करै महानो, सो तप जजौं कर्म गिरि भानों ॥

ॐ ह्रीं श्री कायकलेश तपोधर्माङ्गायार्घ्यं नि ।

अडिल छन्द ।

मुनिको जो परमादवशी दूषण लगै ।

तत्क्षण गुरुपै जाय जु प्रायश्चित्त मंगै ॥

जो आचारज दण्ड देय सो लेय ही।

तप प्रायश्चित्त जजौं अरघ शुभ देय ही॥

ॐ ह्रीं श्री प्रायश्चित्त तपोधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

देव धर्म गुरु और थान जो पूज हैं।

तीरथ अतिशय सिद्धक्षेत्र अघ धूज हैं।

तिनकी विनय अनूप करै तजि मानजी।

सो तप विनय विचार जजौं शिवदानजी॥

ॐ ह्रीं श्री विनय तपोधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

जो मुनिको मग चलत तथा तप करत ही।

उपजै तनमें खेद कर्मबलतैं सही॥

तो मुनिके करि पांव चम्पिये जो सुधी।

सो तप वैय्यावृत्य जजौं नाशक कुधी॥

ॐ ह्रीं श्री वैय्यावृत्यतपोधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

जिन धुनि वाचै सुनै हरष करि चिंतवै।

धरि जिनकी आम्राय पाप मलको चवै॥

सो तप है स्वाध्याय ज्ञान उर लावनो।

सो यह तप मैं जजौं स्वर्ग सुख पावनो॥

ॐ ह्रीं श्री स्वाध्याय-तपोधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

काय ममतको त्याग यतिश्वर थिति करै।

काय त्याग तप धार कर्म अरि मद हरैं॥

तप व्युत्सर्ग महान जानि मन भावनो।

सो मैं पूजौं अर्घ धारि कर पावनो॥

ॐ ह्रीं श्री व्युत्सर्ग-तपोधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

मन वच काय एक थान थिरि लाइये।

आरत रौद्र कु भाव सबै ढाइये ॥

या वपुतै जिय भिन्न शुद्ध जानै सही।

सो तप ध्यान अनूप पूजि लूं शिवमही ॥

ॐ ह्रीं श्री ध्यान तपोधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

इमि धारि तपके भेद बारह सकल कर्म विनाशियो।

यह कर्म भूधर नाश कारण वज्रसम जिन भाषियो ॥

मैं जीव चाहैं तरन भवदधि, ते लहैं तप सारजी

हम शक्तिहीन न कर सकत, तातै जजै उर धारजी ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तम तपोधर्माङ्गायार्घ्य नि.।

जयमाला। - दोहा।

तप तारैं भव उदधिसों, टारै पाप असाधि।

धरै महा सुख थल विषै, देहे ध्यान समाधि ॥

तप ही सार धरम है भाई, तप ही तै मुनिवर शिव पाई।

सिद्धक्षेत्र जे सिद्ध सजै हैं, ते सब पहिले तपहि भजे हैं ॥

तप भव उदधि तरण नवकाया, तपको जस गणधरनेगाया।

ये तपही जग जिन सुखदाई, तात मात स्वामी तप भाई ॥

तपको तो तीर्थङ्कर ध्यावै, तप बिन मोक्ष कभी नहिं पावै।

तप शिव महल तनों मग जानों, तपहीतैं सब कर्म हरानों।

तप सा तीर्थ और नहिं कोई, तप ही तारन सब विधि होई ॥

तप शिव वाट दिखावन दीवा, तपहीतै सुख होय अतीवा ।
 तपतैं इन्द्री मन भट हारै, तप निज बलतैं मोह निवारैं ।
 तपको कायर जिय नहिं पावैं, तपको महत पुरुष उमगावैं ।
 अविचल तपतै सुख बहु होई, तपतै लच्छि अखै पुनिजोई ॥
 तपतै खानपान परमाना, तपहीतै रस बिन सब खाना ।
 दिढ आसन तन तपतै जानों, काय कष्टतैं जिय सुख जानों ।
 तप ही लगे पापको धोवै, तपतैं विनय भाव उर होवै ॥
 धरमी काय तनी सुश्रुषा, तप ही करवावै अघ-लूसा ।
 शास्त्र पठन है तप सुखकारा, यातै होवै वपुतैं न्यारा ॥
 तप ही मन इन्द्रिय वश आनै, ध्यान धरत वसु कर्म हराने ।
 यातै तप लागत है प्यारा, शुद्ध भावतै ह्वै अघ छारा ॥

दोहा

तप मेटत भव तापको, शान्त भाव दिढ होय ।
 हरै भरम देवै धरम, सो तप पूजौं लोय ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तम तपोधर्माङ्गाय-पूर्णार्घ्यं निर्व ।

इति उत्तम तप-धर्म पूजा ।



उत्तम त्याग धर्म पूजा

चौपाई।

त्याग धरममें ममत न कोई, त्याग धरम सुरतरु अवलोई।
वांछा त्याग धरममें नाहीं, सो वृष थापि जजों इस ठाहीं ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमत्यागधर्माङ्ग ! अत्र अवतरर संवौषट्। अत्र
तिष्ठर ठः ठः स्थापनं। अत्र मम सन्निहितो भवर वषट् सन्निधिकरणं।

अथाष्टकम्।

मणुयणानंद की चाल

नीर शुभ क्षीरदधि सार सो लाइजी।

साधु चित तुल्य निर्मल सु मन भायजी ॥

कनक झारी भरी भक्ति मन लाइयो।

त्याग धर्म जजों स्वर्ग शिवदाइयो ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमत्यागधर्माङ्गाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि.।

चन्दनादि गन्ध सार नीरखें रलाइयो।

अमर सौरभ थकी भक्ति भरवाइयो ॥

कनक पातर विषै धार ढरवाइयो।

त्याग धर्म जजों स्वर्ग शिवदाइयो ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमत्यागधर्माङ्गाय संसारतापविनाशनाय चंदनं नि.।

तन्दुलं समुज्जवलं जु अक्षतं सुहायजी।

खण्ड बिन सोहने विलोकि हलषायजी ॥

थाल कंचन भरौ भाव शुभ लाइयो।

त्याग धर्म जजौं स्वर्ग शिवदाइयो ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमत्यागधर्माङ्गाय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् नि.।

पुष्प नाना प्रकार गन्धजुत सारजी।

कल्पवृक्षादिके हेम थाल धारजी ॥

माल करि सोहनी भक्ति उर लाइयो।

त्याग धर्म जजौं स्वर्ग शिवदाइयो ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमत्यागधर्माङ्गाय कामबाण विध्वंशनाय पुष्पं नि.।

लाय नैवेद्य बिन खेद अति सोहना।

मोदकादि सरल सार धार मन मोहना ॥

स्वर्ण भाजन विषैं भक्ति भर लाइयो।

त्याग धर्म जजौं स्वर्ग शिवदाइयो ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमत्यागधर्माङ्गाय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि.।

रत्नमय दीप कर ज्योति परकाशिया।

मोह अन्धकार तासु तेजतैं विनाशिया ॥

हेमथाल धारि भक्ति भाव चित्त लाइयो।

त्याग धर्म जजौं स्वर्ग शिवदाइयो ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमत्यागधर्माङ्गाय मोहांधकारविनाशनाय दीपं नि.।

धूप दश गन्धकी सार सौरभि भरी।

चन्दनादि ले कनक धूप-आयन धरी ॥

अग्नि संग खेय मिस धूम विधि जाइयो।

त्याग धर्म जजौं स्वर्ग शिवदाइयो ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमत्यागधर्माङ्गाय दुष्टाष्टकर्मदहनाय धूपं नि.।

श्रीफल सु लौंग पुंगीफल जु सारजी।

खारक बादाम नारियल सु मनहारजी ॥

धारि स्वर्णपात्र में सु भक्ति उर लाइयो।

त्याग धर्म जजौं स्वर्ग शिवदाइयो ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमत्यागधर्माङ्गाय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि.।

नीरगन्धाक्षतं पुष्प चरु सारजी।

दीप अरु धूप फल अर्घ मनहारजी ॥

भक्ति भाजन विषै धारि चढ़वाइयो।

त्याग धर्म जजौं स्वर्ग शिवदाइयो ॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमत्यागधर्माङ्गाय अनर्घ्यपदप्राप्तयेऽर्घ्यं नि.।

प्रत्येकार्घ्याणि। चाल मणुयणानन्दकी।

कामदेव के समान काय सुन्दर घनी।

सुभग आकार मनुदेव तनसी बनी ॥

जानि पुद्गलीक जिमि चपल चञ्चल सही।

मोह तजि तासुको सु पूजि त्याग शिवलही ॥

ॐ ह्रीं तनममत्वत्याग-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

मात रज मेल मिलि कर्म वश थायजी।

गर्भमें रह्यो सु मास नव दुख पायजी ॥

दूध माँगे बिना न देइ निज मातही।

मोह तजि तासुकों पूजि त्याग शिव लही ॥

ॐ ह्रीं जननीममत्वत्याग-धर्माङ्गायार्घ्यं नि. स्वाहा।

बाप वीरज थकी आप मैलों भयो।

काल्पात्पात्य है जुदा न संग्या ताको रख्यो ॥

कौन का को भयो सर्व स्वारथ सही।

मोह तजि तासुको सु पूजि त्याग शिव लही ॥

ॐ ह्रीं पितृममत्वत्याग-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

पुत्र रूपवंत पूर्व पुण्यतैं लहाइये।

पापके विपाकतैं सुशीघ्र नशि जाइये ॥

मोहवश होय जिय लहै दुख धाम ही।

तासुको ममत्व त्यागधर्म पूजि शिव लही ॥

ॐ ह्रीं पुत्रममत्वत्याग-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

पाप साजि राज काज भाग्यतैं लहाइये।

तासु रक्षोपहार में स्वतन गमाइये ॥

भोग परिजन करै आप स्वभ्र धाम ही।

मोह तजि तासुको सु पूजि त्याग शिव लही ॥

ॐ ह्रीं राज्यममत्वत्याग-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

रत्न सुवरण रजत आदि धन पाइये।

घोटका विमान वाहनादि हूं लहाइये।

जानि चपला समान अधिर दुखधाम ही।

मोह तजि तासुको सु पूजि त्याग शिव लही ॥

ॐ ह्रीं धनवाहनादिममत्वत्याग-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

सहस छिनवै तिया जानि अपछर जिसी।

विनय भरपूर रुपरंग रंभा जिसी।

जानि सन्धति सकल पाप विपदा महीं।

मोह तजि तासुको सु पूजि त्याग शिव लही ॥

ॐ ह्रीं स्त्रीममत्वत्याग-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.॥

संग परिजन मनो हाट मेलों बनो।

धर्मशाला विषै तीर्थयात्री मनो ॥

जानि गृह मोहकी सांकली है सही।

मोह तजि तासुको सु पूजि त्याग शिव लही ॥

ॐ ह्रीं गृहकुटुम्बममत्वत्याग-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

मूल वसु कर्मको कषाय भाव मानिये।

तासुके प्रसंग चार योनीमें भ्रमानिये ॥

सकल संसारका भार यह ही सही।

मोह तजि तासुको सु पूजि त्याग शिव लही ॥

ॐ ह्रीं कषायभावत्यागधर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

राग अरु द्वेष दोय मोह विधितैं बने।

तासु वश जीव जगमें लहै दुख घने ॥

पाप पुण्यको प्रसार तासुतैं ही सही।

राग द्वेष मोहको सु त्याग पूजि शिवलही ॥

ॐ ह्रीं श्री रागद्वेषत्यागधर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

मात सुत नारि धन राज तन सारजी।

राग अरु द्वेष सर्व दुःख कर्तारजी ॥

पाप पुण्य धारि संसार दुख धाम ही।

मोह तजि तासुको सु पूजि त्याग शिव लही ॥

ॐ ह्रीं ममत्वत्याग-धर्माङ्गायार्घ्यं नि.।

जयमाला। (दोहा।)

त्याग तरण तारण सही, भव सागरमें नाव।

त्याग बने नहिं देव पै, मनुज लह्यो यह दाव ॥

बेसरी छन्द।

त्याग जोग सबही संसारा, पुद्गल द्रव्य त्याग निरवारा।
 त्याग रतन कंचन भंडारा, जो त्यागै सो गुरु हमारा ॥
 हाथी घोटक रथ सब त्यागा, साधु आप आतम रस लागा।
 मात ताततैं नेह निवारा, जो त्यागै सो गुरु हमारा ॥
 त्याग राज बन्धन दुखदाई, नारि पुत्रतैं नेह तुड़ाई।
 अनुभव रस मारग विस्तारा जो त्यागै सो गुरु हमारा ॥
 आरत भाव त्यागि दुखदाई, त्याग योग्य सब मान बड़ाई।
 रौद्र ध्यान त्यागै अधिकारा, जो त्यागै सो गुरु हमारा ॥
 क्रोध मान छल लोभ गमावै, सो उत्कृष्टा त्याग कहावै।
 हास्य शोक भय भाव निवारा, जो त्यागै सो गुरु हमारा ॥
 मद मत्सरको त्याग कराया, त्याग अरति रति बिसन बताया।
 राग द्वेषका तजै प्रसारा, जो त्यागै सो गुरु हमारा ॥
 परमें ममत त्यागिकै भाई, निज परिणतिमें प्रिति लगाई।
 त्याग पाप परिणतिकी धारा, जो त्यागै सो गुरु हमारा ॥
 जगतैं विरचित आप रस भीना, तिनने शिवमग नीकैचीना।
 त्याग जगत दुखतैं सिर भारा, जो त्यागै सो गुरु हमारा ॥
 सोरठा- त्याग धरम तप सार, भव भव शरणो में गहों।
 जजौं त्याग भवतार, ता प्रसादतैं शिव लहों ॥

ॐ ह्रीं उत्तमत्यागधर्माङ्गाय पूर्णार्घ्यं नि.।

इति उत्तम त्याग धर्म पूजा संपूर्ण।

उत्तम आकिंचन्य धर्म पूजा

आकिंचन वृष नगन अवस्था है सही।

तामें दुविध परिग्रह त्याग सु धुनि कही ॥

धन धान्यादिक बाह्य राग अन्तर गिनो।

इनतैं रहित सु नगन धरम जजि अघ हनो ॥

ॐ ह्रीं उत्तमाकिंचन्यधर्माङ्ग ! अत्र अवतरर संवौषट्। अत्र
तिष्ठर ठःठः। अत्र मम सिन्निर्हितो भवर वषट्।

अथाष्टकं त्रिभंगी छन्द।

जल लाया नीका सुरतरिणीका उज्ज्वल ठीका धार करी।

अति गंध सुहाई निर्मल भाई हर्ष बढ़ाई पाप हरी ॥

ले कनक सु झारी भक्ति उचारी भव दुखहारी हाथ लई।

आकिंचन धर्मा जजि शुभ कर्मा दे फल परमा थानसही ॥

ॐ ह्रीं उत्तमाकिंचन्यधर्माङ्गाय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलं नि।

शुभ चन्दन आनी घसि सँगपानी गन्ध सुहानी हाथ धरि।

अलि ऊपर आवै वासु लुभावै शुद्ध करावे नेह भरी ॥

एसी गंध लावो हरष बढ़ाओ ज्ञान जगावो मोक्ष मही।

आकिंचन धर्मा जजि शुभ कर्मा दे फल परमा थानसही ॥

ॐ ह्रीं उत्तमाकिंचन्यधर्माङ्गाय संसारताप विनाशनाय चंदनं नि।

शुभ अक्षत लाया विमल सुहाया खंडें बिन भाया सुखदाई।

मुक्ताफल जानौ अधिक सुहानो गंध सुथानौ गह भाई ॥

सो ले अक्षत जनमन हर्षत भक्ति करत ते शीश नवाई ।
गाकिंचन धर्मा जजि शुभ कर्मा दे फल परमा थान सही ॥

ॐ ह्रीं उत्तमाकिंचन्यधर्माङ्गाय-अक्षयपदप्राप्तयेऽक्षतान् नि.।

ने फूलसु प्यारा गंध भरारा वर्ण अपारा शोभ घने ।
ना आकारा अलिंगण धारा सुरद्रुम सारा जेम ठने ॥

ने कुसुम जु आया माल बनाया नेह लगाया भक्तिमयी ।
गाकिंचन धर्मा जजि शुभ कर्मा दे फल परमा थान सही ॥

ॐ ह्रीं उत्तमाकिंचन्यधर्माङ्गाय कामबाणविध्वंशनाय पुष्यं नि.।

ना रस आने अधिक सुहाने षट्विधि जानै सुखदाई ।
गुभ मोदक कीने हाथ सु लीने मधु रस भीने चरु लाई ॥

गिरि कंचन थाला भक्ति विशाला कह गुण माला ज्ञानमई ॥
गाकिंचन धर्मा जजि शुभ कर्मा दे फल परमा थान सही ॥

ॐ ह्रीं उत्तमाकिंचन्यधर्माङ्गाय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि.।

गणि दीपक नाना तेज महाना मोह नशाना ज्ञान करा ।
गिरि कंचन थारी भक्ति उचारी अर्थ अपारी पाप हरा ॥

गय्या तम धोवै गुणमणि पोवै शिवमग जोवै ज्योतिमयी ।
गाकिंचन धर्मा जजि शुभ कर्मा दे फल परमा थान सही ॥

ॐ ह्रीं उत्तमाकिंचन्यधर्माङ्गाय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं नि.।

श गंध मिलाई धूप बनाई अधिक सुहाई सुखकारी ।
लयागिरि डारा अगर सुधारा अलि गुंजारा मद धारी ॥

६०]

श्री दशलक्षण मण्डल विधान।

ऐसी करि लीनी धूप नवीनी, भक्ति सुभीनी भावमई
आकिंचन धर्मा जजि शुभ कर्मा दे फल परमा थान सहा।

ॐ ह्रीं उत्तमाकिंचन्यधर्माङ्गाय दुष्टाष्टकर्मदहनाय धूपं नि।

फल लौंग सुपारी श्रीफल भारी भक्ति भरारी गह आनौ
फिर लाय बदामा खारिक ठामा, वांछित कामा फल जानौ
एसो फल लायो अति हरषायो मुख गुन गायो पुण्य लही
आकिंचन धर्मा जजि शुभ कर्मा दे फल परमा थान सही।

ॐ ह्रीं उत्तमाकिंचन्यधर्माङ्गाय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि।

जल चंदन लाया अक्षत भाया फूल मंगाया चरु जु धरी
ले दीपक थारा धूप अपारा श्रीफल धारा अर्घ करी
वह द्रव्य जु लाये भक्ति बढ़ाये ज्ञान सु पाये ध्यान लही
आकिंचन धर्मा जजि शुभ कर्मा दे फल परमा थान सही

ॐ ह्रीं उत्तमाकिंचन्यधर्माङ्गाय अनर्घपदप्राप्तयेऽर्घ्यं नि।

प्रत्येकाध्याणि (मणुयणानंदकी चाल।

स्वर्ग जग है अथिर ध्रौव्य नहिं मानिये।

तात माता तिया भ्रात सुत जानिये ॥

चक्रवर्ती तने भोग क्षय जायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥१॥

ॐ ह्रीं अनित्यरूपोत्तम-आकिञ्चन्यधर्माङ्गाय अर्घ्यं नि।

आयु पूरन भये शर्ण नहिं कोय जी।

औषधी मन्त्र बल तन्त्र बहु होयजी ॥

व खग शर्न नहिं मर्न दिन आयजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥२ ॥

ॐ ह्रीं अशरणरूपोत्तम-आकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।
न्यतैं प्रिति संसार सो है सही।

या थकी राग अरु द्वेष उपजै मही ॥
गरुख चारि गति माहिं दुखदायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥३ ॥

ॐ ह्रीं संसाररूपोत्तम-आकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।
ीव एकहि फिरै चार गति आपही।

एक भोगै सदा पुण्य या पापही ॥
गेउ नहिं दुसरो आप दुःख पायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥४ ॥

ॐ ह्रीं एकत्वरूपोत्तम-आकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।
र्व द्रव्य भिन्न कोई मिले न जानिये।

नीर क्षीर के समान जीव देह मानिये ॥
ानि इमि साधु निर्गन्थ सुख पायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥५ ॥

ॐ ह्रीं अन्यत्ररूपोत्तम-आकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।
ह में पवित्र वस्तु एक नहिं पाय हैं।

सप्त धातु भरी द्वार नौ बहाय हैं ॥
ीव निर्मल महा शुद्ध चैतनायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥६ ॥

ॐ ह्रीं अशुचिरूपोत्तम-आकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

जोग मिथ्यात्व अव्रत कषाय जानिये।

और परमाद भाव कर्म आठ मानिये ॥

त्यागि दुर्भावसाधु शुद्ध रूप ध्यायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥७

ॐ ह्रीं आस्रवरूपोत्तम-आकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

अन्यतैं विरक्त है जु आपरूप ध्यावही।

राग द्वेषको विहाय शुद्ध तत्त्व पावही ॥

भाव संवर यही जानि सुखदायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति गायजी ॥८

ॐ ह्रीं संवररूपोत्तम-आकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

पाप पुण्य भावतैं जु कर्म बन्ध है सही।

शुद्धता प्रभाव कर्म जाय निर्जरा लही ॥

जानि इस भांति बिन राग पद ध्यायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥९

ॐ ह्रीं निर्जरारूपोत्तम-आकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

तीन लोक नित्यरूप जानि नराकारजी।

चार गति घूमि जीव दुःख ले अपार जी ॥

लोक को स्वरूप जानि आत्मतत्व ध्यायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥१०

ॐ ह्रीं लोकरूपोत्तम-आकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

वस्तुको स्वभाव धर्म जीव रक्षा कही।

दर्श बोध आचरण जु रत्न तीनो सही ॥

चार विधि दान अरु धर्म दश ध्यायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥११ ॥

ॐ ह्रीं धर्मरूपोत्तम-आकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

गैर वस्तुको जु है सुलभ अयनावना।

ज्ञान निधि आपनी न सहज ही लहावना ॥

ताही पाय साधु शुद्ध आत्मरूप ध्यायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥१२ ॥

ॐ ह्रीं बोधिदुर्लभरूपोत्तम-आकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

भ्रात सुत नारि गज घोटकादि भाई है।

दास दासी पिता सुतादि परिजनाइ है ॥

संग चेतन तजो जानि दुःखदायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥१३ ॥

ॐ ह्रीं चेतनरूपब्रह्म परित्यागआकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

रत्न कंचन रजत ठाम वस्तर सही।

महल वन बाग बहुग्राम जुत शुभ सही।

संग निर्जीव छांडि शुद्ध रूप ध्यायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥१४ ॥

ॐ ह्रीं अचेतनरूप बाह्यपरित्याग आकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

अंतरंग संग राग आदि अरु द्वेष है।

या थकी जीव लहै चार गति क्लेश है ॥

जानि यह अंतरंग संग छुड़वायजी।

धर्म आकिंचना पूजि भक्ति भायजी ॥१५ ॥

ॐ ह्रीं अन्तरंगपरिग्रहत्यागाकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

नग्न रूप धारिके जु संग दुविधा तजै।

नेह देहको जु छोड़ी आप थिरता भजै॥

ता प्रसाद भक्ति माहिं ही रहै न आयजी।

धर्म आकिंचना सु पूजि भक्ति भायजी॥१६॥

ॐ ह्रीं विविधपरिग्रह त्यागाकिंचन्यधर्माङ्गाय अर्घ्य नि.।

जयमाला। (दोहा।)

आकिंचन इस जीवको, मिल्यो न शिवमग पाय।

अब मैं पूजों नग्न पद, फल यह मोह मिटाय॥

बेसरी छन्द।

आकिंचन्य वृष दुर्धर जानों, याकों धारि सकै न अयानो।

ज्ञानी तो यामैं रुक जावै वीतराग है धरम निभावै॥

वांछा रोग जासु उर नाहीं, सो आकिंचन धरम धराई।

विषय भिखारी जीव न पावै, वीतराग है धरम निभावै॥

आकिंचन्य जगत जिय प्यारा, जो धारै सो गुरु हमारा।

परिग्रहधारी ताहि न पावै, वीतराग है धरम निभावै॥

आकिंचन्य इन्द्र सुर सेवै, ता प्रसाद निज आतम बैवें।

लोभी जन यातैं डरि जावै, वीतराग है धरम निभावै॥

आकिंचन वृष मोह निधाना, याहीतै है केवलज्ञाना।

तन धन रंचक याहि न पावै, वीतराग है धरम निभावै॥

आकिंचन हाथी का भारा, विषयी जीव सुसा किम धारा।

रागी नाम सुनत मुरझावै, वीतराग है धरम निभावै॥

आकिंचन्य धरम गढ नीका, ता बलघ्नौव्य राज है जीका।
हम या व्रतको शीश नवावै, साधुजन गहि शिवपुर जावै ॥

दोहा

आकिंचन जो आदरे, शिव पहुँचावे सार।
और सकल कर्मनि लुटै, इमि लखि गहु वृषसार ॥
आकिंचन को सेवतैं नशै करम बट मार।
पूजाँ मैं आकिंचना, ज्यौ पाऊँ भव पार ॥

ॐ ह्रीं आकिंचन्य-धर्माङ्गाय पूर्णार्घ्यं नि।

उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पूजा

अडिल्ल छन्द

नारि देव नर पशु काष्ठ चित्रामकी।
ब्रह्मचर्य व्रतधारिनके नहिं कामकी ॥
मन वच काया मात सुता भगिनी गिनै।
ऐसो व्रत ब्रह्मचर्य पूजि हम अघ हनै ॥

ॐ ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्यधर्माङ्ग! अत्र अवतरर संवौषट्। अत्र तिष्ठर
ठः ठः स्थापनं। अत्र मम सन्निहितो भवर वषट् सन्निधिकरणं।

त्रिभङ्गी छन्द

ले निर्मल पानी अति सुखदानी, उज्ज्वल आनी गंग तनौ।
धरि कनक सु झारी मन-हरकारी निज करधारी हरष ठनौ ॥
करि भक्ति सुलाऊँ अति गुण गाऊँ, पुण्य बढ़ाऊँ सुखदाई।
जजि ब्रह्म जुचारी वर शिवनारी, आनंदकारी थिर थाई ॥
ॐ ह्रीं श्री उत्तमब्रह्मचर्यधर्माङ्गाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि।

ले बावन चंदन दाह निकंदन, अगर घिसन्दन नीर करी।
 तिस गंध लुभाया षट्पद आया, गुंज कराया हर्ष धरी ॥
 शुभ गंध मंगायो पात्र धरायो, बहु महकायो सुखदाई ॥
 जजि ब्रह्म जुचारी वरि शिवनारी, आनंदकारी थिर थाई ॥
 ॐ ह्रीं श्री उत्तमब्रह्मचर्यधर्माङ्गाय संसारताप विनाशनाय चंदनं नि. ॥३ ॥
 ले अक्षत चोखे लखि निरदोखे, उज्वल धोके हित धारी।
 मुक्ता फल जैसे गंधित तैसे, दीरघ जैसे जो भारी ॥
 निर्मल जु अखंडित सौरभ मंडित, शशिमद खंडित सुखदाई।
 जजि ब्रह्म जु चारी वरि शिवनारी, आनंदकारी थिर थाई ॥
 ॐ ह्रीं श्री उत्तमब्रह्मचर्यधर्माङ्गाय-अक्षयपदप्राप्तयेऽक्षतान नि. ॥४ ॥
 बहु फूल जु लाया गंध लुभाया, रंग सुहाया सुखखानी।
 तसु माल बनाई सुभग सुहाई, अलिगण भाई मनमानी ॥
 मैं निज कर लायो हरष बढायो, जिन गुण गायो सुखदाई।
 जजि ब्रह्म जुचारी वरि शिवनारी, आनंदकारी थिर थाई ॥
 ॐ ह्रीं श्री उत्तमब्रह्मचर्यधर्माङ्गाय कामबाणविध्वंशनाय पुष्पं नि. ॥५ ॥
 नैवेद्य सु नीका रसजुत ठीका, सुखदा जीका गुण थानो।
 करि मोदक लाया मधुर सुहाया, थाल भराया थुति गानो ॥
 जिन अग्र चढाऊं मुख गुण गाऊं, अति हरषाऊं सुख पाई।
 जजि ब्रह्म जुचारी वरि शिवनारी, आनंदकारी थिर थाई ॥
 ॐ ह्रीं श्री उत्तमब्रह्मचर्यधर्माङ्गाय क्षुध रोगविनाशनाय नैवेद्यं नि. ॥६ ॥
 मणि दीपक करीया तिमिर सु हरिया, ज्योति सु धरिया तेज खरा।
 थरि थाल सु लाया हरष बढाया, अति गुण गाया नेह धरा ॥

मैं करौ आरती गाय भारती, धर्म सारथी शिवदाई।
जजि ब्रह्म जुचारी वरि शिवनारी, आनंदकारी थिर थाई॥
ॐ ह्रीं श्री उत्तमब्रह्मचर्यधर्माङ्गाय मोहान्धकार विनाशनाय दीपं नि।
करि धूप पियारी दशविधि धारि, गंध अपारी मनमानी।
शुभ चंदन डारा अगर अपारा, द्रव्य सु प्यारा बहु आनी॥
अपने कर लाया नेह लगाया, अगनि जराया जस गाई।
जजि ब्रह्म जुचारी वरि शिवनारी, आनंदकारी थिर थाई॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमब्रह्मचर्यधर्माङ्गाय दुष्टाष्टकर्मदहनाय धूपं नि।
ले लौंग बदामा श्रीफल कामा, खारिक ठामा हम लाये।
पुंगीफल आदि बहुफल स्वादी, भक्ति अराधी सुखपाये॥
भरि थाल अपारा शिव फलकारा, पाप विडारा सुखदाई।
जजि ब्रह्म जुचारी वरि शिवनारी, आनंदकारी थिर थाई॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमब्रह्मचर्यधर्माङ्गाय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि।
जल चंदन लाया अखित सु भाया, फूल मिलाया गंध भारी।
चरु दीपक आनो धूप दहानो, फल अधिकानो शिवकारी।
वसु द्रव्य मँगाई अर्घ बनाई, भक्ति बढ़ाई शिवदाई।
जजि ब्रह्म जुचारी वरि शिवनारी, आनंदकारी थिरथाई॥

ॐ ह्रीं श्री उत्तमब्रह्मचर्यधर्माङ्गाय अनर्घ्यपदप्राप्तयेऽर्घ्यं नि।

प्रत्येकाध्याणि

तिया वास तहँ वास न कीजै, अपना शील भाव रखि लीजै।
सकल नारि जननी सम जोवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै॥
ॐ ह्रीं श्री स्त्रीसहवासवर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गाय अर्घ्यं नि।

नारी तन रति भाव न देखै, हाव भाव विभ्रम नहिं पेखै ।
शील धर्मतैं निज सुख जोवै ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं श्रीमनोहरांगनिरीक्षण-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. ।
राग वचन कबहुँ नहिं बोलै, निज वच जिनवाणी समतोलै ।
राग वचन सूँ प्रीति न होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं रागवचन-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. ।
पूरव भोग किये न चितारै, सो ही शील भाव उर धारै ।
राग भाव तजि निज रस जोवे, ब्रह्मचर्य जजि सब अघखोवै ॥

ॐ ह्रीं पूर्वभोगानुस्मरण-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. ।
काम उदीपक अशन न खावै, षट्स माहिं न जिय ललचावै ।
निशादिन शील भावना होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं वृष्येष्ट-रस-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. ।
तन श्रृङ्गार नहिं मन भावै भूषित देखि नहीं हरषावै ।
शीलाभरण विभूषित होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं स्वशरीर-संस्कार-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. ।
नारी की शय्या नहिं पौढे, कपड़ा नारी तनी नहिं ओढे ।
शील विरत ताके दिढ़ होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं स्त्रीशय्यासन-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. ।
कबहुँ न काम कथा मन आई, विकथा काननतै न सुनाई ।
ताके मदन चाह नहिं होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं काम कथा-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. ।
पूरण उदर अशन नहिं खावै, ऊनोदर में चित्त रमावै ।
शील पालना ताके होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं उदरपूर्णाशन-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. ।

नवधा शील धरै जो कोई, ताके ब्रह्मचर्य व्रत होई।
इस व्रततै भव तरनो होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं नवधाशील पालनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि.।

कामदेव वश तन तप होई, जिमि तरु होय तुषार दसोई।
यह शोषण शर काम न होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं शोषणकामबाण-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि.।

कामबाण जाके मन माहीं, मन संताप रहे अधिकाई।
काम बाण संताप न होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं संतापकामबाण-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि.।

काम बाण उच्चाट करावै, रहै उदास कछु न सुहावै।
उच्चाटन शर काम न होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं उच्चाटनकामबाण-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि.।

कामीजनको काम सतावै, ता वश ताहि न कछु सुहावै।
वशीकरण शर बाण न होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं वशीकरणकामबाण-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि.।

कामदेवतै गहल जु होई, सुधि बुधि ताहि रहै नहिं कोई।
सो मोहन शर काम न होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं मोहनकामबाण-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि.।

ये शर काम कहे लौकीका, सबतै बडौ मोह रिपु जीका।
जहँ ये पांच बाण नहिं होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं पंचप्रकारकामबाण-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि.।

रूप तियाको लखि मुलकावै वृथा पाप शिर माहिं चढ़ावै।
ये शर ताके मांहि न होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं मुलकनकामबाण-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि.।

बार बार तिय देखन चाहै, जाके उर अवलोकन दाहै ।
जाके उर यह सर नहिं होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं अवलोकनकामबाण-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. ।
ये चाहै पै ताहि न भावै, हास्य वचन कहि ताहि रिझावै ।
यह शर काम तहां नहिं होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं हास्यकामबाण-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. ।
परगट वचन कहन नहिं पावै, सैन करै तिय जिय ललचावै ।
जाके यह शर काम न होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं इङ्गितचेष्टा-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. ।
कामदेव जब अधिक सतावै, मिलै तिया नहिं प्राण गमावै ।
ये शर काम जहां नहिं होवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं मारणकामबाण-वर्जनोत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. ।
दशविधि कामबाण नशि जाई, शील बाड़ि पाले नवधाई ।
सो जिय शिवसुंदरिकों जोवै, ब्रह्मचर्य जजि सब अघ खोवै ॥

ॐ ह्रीं शुद्धब्रह्मचर्य-धर्माङ्गायार्घ्य नि. स्वाहा ।

दोहा- शील शिरोमणी जगतमें, सकल धरम शिरमौर ।
शिवकर अघहर पुण्यभर, जजौ शील गुण ठौर ॥
शील सिद्ध थलका मग जानो, शील सुरग सरिता मन आनो
शील भावतै अघ नशि जाई, सांचा धर्म शील है भाई ॥
शील मनुज भवमें ही गाया, नहिं निज जन्म सफल करि भाया
शील समुद्र संसार तराई, सांचा शील धर्म है भाई ॥
शील सहाय करे जग जाकी, सुरनरसेव करत हैं ताकी ।
ताको नाम लेत दुख जाई, सांचा धरम शील है भाई ॥

शील सती सीताने धारौ, अग्निकुण्ड शीतल करि डारौ ।
 शील प्रभाव जगत पुजवाई, सांचा धरम शील है भाई ॥
 शील सती द्रोपदिने धारौ, ताफल कीचक भीमविदारौ ।
 भूप हरी पीछै फिर आई, सांचा धरम शील है भाई ॥
 शील सती नीली मन आनौ, सुरनर पूज भईजग जानौ ।
 दोष सकल जातै नशि जाई,सांचा धरम शील है भाई ॥
 शील गुणवती कन्या लीनों, ताको देव सहाय जु कीनों ।
 शील विरततै सुरगति पाई, सांचा धरम शील है भाई ॥
 शील सती सोमाने धारा, ताफल सर्प भयो मणि-हारा ।
 जग जस ले सुरलोक सिधाई,सांचा धरम शील है भाई ॥
 सेठ सुदर्शन यह व्रत कीनो,पुण्य प्रताप सुयश जगलीनो ।
 शील सुरेन्द्र सिद्ध पद दाई, सांचा धरम शील है भाई ॥

ॐ ह्रीं उत्तमब्रह्मचर्य-धर्माङ्गाय-महार्घ्य नि.।

समुच्चय जयमाला ।

धरम जगतमें सार, उत्तम क्षमा जु आदि दे ।

भवदधि तारनहार, नमों धरम दशलक्षिणी ॥

क्षमा धरम सब जगमें आला, निज परिणतिको है रखवाला ।

क्षमा रतन गुण रतन भंडारो, मोकूं भवसागरतै तारों ॥

मार्दव धरम सकल गुण वृन्दा, मान विहंडन शिवसुखकंदा ।

मार्दव गुणतै विनय प्रसारौ, मोकूं भवसागरतै तारो ॥

आर्जव रीति सकल सुखदानी, सरल स्वभाव कुटिलता हानी ।

आर्जव शिवपुर पंथ सहारो,मोकूं भवसागरतै तारो ॥

सत्य धरम सम सार न कोई, सत्य धरम जिन भाषित होई ।

सत्य सकल संतनिकूं प्यारो,मोकूं भवसागरतै तारो ॥

शौच धरम निर्मलता होई, शौच धरम सब विधि मल खोई ।
 शौच धरम शिवमंदिर द्वारो, मोकूं भवसागरतैं तारो ॥
 संयम मन इन्द्रियवश लावै, त्रस थावरके प्राण रखावे ।
 संयम भाव सदा उर धारो, मोकूं भवसागरतैं तारो ॥
 तप सब आशा पाशाँ तोरै, कर्म अनादि बंधको छोरै ।
 तप जलतै है अघ मल न्यारो, मोकूं भवसागरतैं तारो ॥
 त्याग पाप मल धोवनहारा, त्याग धरम उर करै उजारा ।
 त्याग भावतै कर्म निवारो, मोकूं भवसागरतैं तारो ॥
 नगन मोक्षका बड़ा निशाना, नगन बिना नाहीं शिवथाना ।
 आकिंचन वृष नगन विचारो, मोकूं भवसागरतैं तारो ॥
 ब्रह्मचर्य शिवनारी मिलावै, ता बिन जीव जगत भरमावै ।
 ब्रह्मचर्य है थिर मन धारो, मोकूं भवसागरतैं तारो ॥
 ऐसे दश विधि धरम पियारा, जन्म-रोग-हृ औषधि सारा ।
 'टेक' धरम निजपर निवारो, मोकूं भवसागरतैं तारो ॥
 दोहा- आतम अवलोकन धरम, दशविधि धरि मनलाय ।
 जल फलादि वसु द्रव्यतैं, धरम जजौ हरषाय ॥
 दशविधि धरम उपायकै, भवसागर तिरि जाय ।

मनवांछा मेरी यही, भव भव होय सहाय ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादि-ब्रह्मचर्य-पर्यंत-दशलक्षण-धर्माङ्गायपूर्णार्घ्यं नि ।

इत्याशीर्वादः ।

फिर १०८ जाप्य देकर आरती करके शान्ति विसर्जन करे ।

इति दशलक्षण मण्डल विधान

[समाप्त]

पूजन व व्रतोद्यापनके लिये हस्तलिखित पक्के रंगीन मांडने मोटे कपडे पर इस प्रकार तैयार है। इसके हम सोल एजन्ट हैं।

साईज ४॥ X ४॥ फीट।

पंचकल्याणक	५००)	शांति विधान	५००)
समोशरण	५५०)	तेरहद्वीप	७५०)
इन्द्रध्वज	७५०)	ढाईद्वीप	७५०)
वर्तमान चौबीसी	५००)	नन्तीश्वर	५००)
जम्बूद्वीप	५५०)	कर्मदहन	५००)
चौसठऋद्धि	५५०)	दशलक्षण	५००)
नवग्रह	५००)	पंचपरमेष्ठी	५००)
सोलहकारण	५००)	रत्नत्रय	५००)
सुदर्शनमेरु वि.	५००)	तीन चौबीसी	५००)
पंचमेरु	५००)	भक्तामर	५००)
सिद्धचक्र	५५०)	ऋषिमंडल	५५०)
सहस्रनाम	५५०)	तीस चौबीसी	५५०)

बीस विरहमान ५००) तीनलोक विधान २॥ X २ गजका ७५०)

सभी मांडने रंगीन व पक्के रंगके है। मंदिरोंमें कायम रखनेको अवश्य मंगाइये। मांडने मंगवानेवाले ३००) एडवांस भेजें। एडवांस आनेपर ही मांडना भेजा जायेगा।

भक्तामर रहस्य

जिसमें मुगलकालीन ५० भाव चित्रोंसे सुसज्जित, ललित ४८ यंत्रकृतियोंसे मंडित, संशोधित दिव्य यंत्रसे विभूषित, पौराणिक भव्य कथाओंसे अलंकृत भावार्थ, विवेचन, पूजन, विधान आदिसे समर्चित डिमाई साईझमें बढिया कागज पर मुद्रित पृष्ठ ५२५ मूल्य १००)

प्रमोद कापडिया दिगम्बर जैन पुस्तकालय
खपाटिया चकला, गांधीचौक सूरत-३. टे. नं. (०२६१) २५९०६२१



परस्परोपग्रहो जीवानाम्

सभी तरहके
दिगम्बर जैन धार्मिक ग्रंथ
मंगानेका पता

दिगम्बर जैन धार्मिक ग्रंथालय

खपाटिया

सुरत-३

Ph. :



134666

gyanmandir@kobatirth.org

Mob. : 9374724727